

# आजाद सिपाही



**FLORENCE**  
GROUP OF INSTITUTIONS  
(A Unit of Al-Burhan Educational Society)

**ADMISSION OPEN**

**COLLEGE OF NURSING**

2 YEARS  
M.Sc. Nursing  
Post Basic B. Sc. Nursing  
B.Sc. Nursing  
3 YEARS  
GNM  
ANM (Auxiliary Nursing and Midwifery)

**COLLEGE OF PARA MEDICAL SCIENCE**

4 YEARS  
BMLT  
DMLT  
OT ASSISTANT  
ECG  
OPHTHALMIC ASST.  
CRITICAL CARE (ICU)  
RADIO-IMAGING  
ANESTHESIA TECH.  
DRESSERS

**COLLEGE OF PHARMACY**

2 YEARS  
D-PHARM  
B-PHARM

Separate Hostel For Boys & Girls  
9031231082, 7903999411, 6205145470  
E-mail: fsnirba@gmail.com  
Website: www.florenceinstitute.com

## न्यूज रील

### 16 को भाजपा मंडल अध्यक्षों की बैठक

रांची (आजाद सिपाही)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की 16 अगस्त को रांची में सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री सह प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवशज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा शामिल होंगे। दोनों नेता कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा।

## कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: बंगाल से दिल्ली तक विरोध तीन लाख डॉक्टर हड़ताल पर

● ममता बोली, 18 अगस्त तक पुलिस मामला हल नहीं कर पायी, तो जांच सीबीआइ को सौंपेगे

आजाद सिपाही संवाददाता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में सोमवार को रजिस्टर्ड डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर चले गये हैं। रजिस्टर्ड डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ आल इंडिया रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रजिस्टर्ड डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का एलान किया है। एम्स दिल्ली समेत देशभर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गयी हैं। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉ. सर्वेश पांडे ने कहा कि हेल्थ सेक्टर की से हमने घटना की सीबीआइ जांच कराने और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग रखी है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल जारी रखेंगे। उधर, पश्चिम बंगाल



### हड़ताल पर गये डॉक्टरों की मांगें

- मामले को बिना देरी किये सीबीआइ के हवाले किया जाये।
- प्रिंसिपल के साथ-साथ एमएस और अल्पताल के सिक्वॉरिटी इंचार्ज का तुरंत इस्तीफा लिया जाये।
- केंद्र सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जायेगा।
- मृतक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग या लाइब्रेरी का नाम किया जाये।
- डॉक्टर के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये।
- शारीरिक हमले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे।

की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक मामले को हल नहीं कर सकेगी, तो जांच सीबीआइ को सौंप दी जायेगी। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त की देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गयी। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी

### मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया

आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी और के साथ ऐसा हो। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया।

गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पायी गयी थी। इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सुबह ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंचीं। ममता ने उसके माता-पिता और परिवार के सदस्यों से बात की। आरोपी ने शराब पीने के बाद रेप-मर्डर किया : कोलकाता पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी संजय राय ने 8 अगस्त की रात वारदात से पहले अस्पताल के पीछे शराब पी थी। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वह घर जाकर सो गया था। सुबह सबूत मिलने के लिए उसने कपड़े धोये। उसके जूते पर खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने घटना वाली रात द्यूटी पर तैनात तीन डॉक्टरों और एक कर्मी को पूछताछ के लिए बुलाया है।

## हजारीबाग में हवलदार की हत्या कर कैदी फरार

● स्लाइन की पाइप से घोंटा गला, कैदी वार्ड के दरवाजे को लॉक कर भाग निकला

आजाद सिपाही संवाददाता

हजारीबाग। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक कैदी ने सुरक्षा में लगे हवलदार की हत्या कर दी। इसके बाद कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर फरार हो गया। वह 25 जुलाई से कैदी वार्ड में इलाजत था। फरार होनेवाले कैदी का नाम शाहिद अंसारी (41) है। वह धनबाद के चास नाला का रहनेवाला है। वहीं, मृतक हवलदार गिरिडीह के बंगाबाद निवासी चोहान हेमब्रम है। घटना रविवार देर की है। कैदी अस्पताल से रात के 1.15 बजे पैदल ही निकला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कैदी ने स्लाइन चढ़ाने वाले स्टैंड के रॉड से हवलदार को मारा। इसके बाद स्लाइन की पाइप से उसका गला घोंटा दिया। हत्या के बाद हवलदार के पास से हथकड़ी की चाबी लेकर खोला। फिर कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर दिया और भाग निकला।



### स्पाइनल की समस्या कह रहा था इलाज

अपराधी शाहिद 25 जुलाई से कैदी वार्ड में भर्ती था। कैदी के शरीर के दाहिने हिस्से में झिनझनी की शिकवत कर रहा था। एम्स में इलाज कराने के लिए आवेदन दिया था। उसके आवेदन को अस्वीकार करते हुए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। पिछले 18 दिनों से अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था। चिकित्सकों ने जांच में किसी भी तरह की बीमारी नहीं निकलने के बाद एमआरआइ जांच भी कराया गया था। उसमें भी कोई बीमारी नहीं पायी गयी। फिर मेडिकल बोर्ड ने उसे शनिवार को ही रिस्म रेफर कर दिया था। रिस्म जाने से पहले उसने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया।

### लाठी लेकर चलनेवाला कैदी, दो पैरों पर भागा

चिकित्सकों के मुताबिक वह स्पाइनल प्रॉब्लम बता कर अस्पताल में एडमिट हुआ था, जिसमें फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम था। एक पैर काम नहीं कर रहा था, जिससे वह लाठी से चल रहा था। जबकि भागने के समय बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बगैर लाठी के भागा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह झूठी बीमारी का बहाना बना कर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। आशंका जतायी जा रही है कि इस तरह से भागने की योजना उसने जेल में ही बना ली थी।

घटना के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, सीओ, सदर थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीम समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। फरार कैदी को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

## बिहार के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़, सात कांवरियों की मौत

घरमदीद बोला, दुकानदार-श्रद्धालुओं में मारपीट हुई  
मुतक के परिजन बोले, वॉलंटियर्स ने लाठीचार्ज किया

आजाद सिपाही संवाददाता

जहानाबाद। सावन के चौथे सोमवार को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेले के दौरान सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मच गयी। इसमें दब कर सात कांवरियों की मौत हो गयी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे की दो वजहें सामने आयी हैं।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मंदिर के पास फूल बेच रहे दुकानदारों का लोगों से झगड़ा



हुआ था। इसके बाद ही अफरा-तफरी मची। लोग एक-दूसरे पर चढ़ कर आगे बढ़ने लगे। मैं भी लाश के नीचे दबा हुआ था, लोगों ने मुझे खींच कर बाहर निकाला। एक-दो मिट्ट और रहता तो मेरी भी मौत हो जाती।

इससे भगदड़ मची, जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे और दब गये।

घटना की जानकारी के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच कर राहत और बचाव में जुट गयी थी। जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि प्रशासन की ओर से तैयारी थी। मैं और एसपी रात 12 बजे ही मौके पर पहुंच गये थे। हालात को काबू में किया गया। स्थानीय दुकानदारों का श्रद्धालुओं से विवाद हुआ था, जिसके बाद ये स्थिति हुई। मंदिर की भौगोलिक स्थिति भी वैसी ही है, जरा-सी भगदड़ से बड़ा हादसा हो सकता है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है।

## असम में अवैध रूप से घुस रहे थे बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस ने रोका असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

आजाद सिपाही संवाददाता

गुवाहाटी। बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चार बांग्लादेशी नागरिक करीमगंज जिले के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस ने प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया। उन्हें तुरंत खदेड़ दिया, जिससे उनकी अवैध घुसपैठ रुक गयी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीमा की कड़ी निगरानी की जा रही है। सीमाएं सुरक्षित हैं। वैध पासपोर्ट, वीजा और भारत के नागरिक को ही आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा किसी को भी बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने की



### बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया

मालदा (आजाद सिपाही)। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेश बॉर्डर पर 11-12 अगस्त की रात बॉर्डर सिक्वॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) और बांग्लादेशी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बीएसएफ ने एक तस्कर को मार गिराया। घटना बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत 115वीं बटालियन की बॉटनीचक बॉर्डर चेक पोस्ट की है।

अनुमति नहीं दी गयी है। बिस्वा सरमा ने घुसपैठियों का नाम भी शेयर किया : हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने पोस्ट में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे लोगों के नाम भी शेयर

किये हैं। उन्होंने लिखा बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोतिउर शेख, मुशियार मुल्ला, तानिया मुल्ला और रीता मुल्ला के रूप में हुई है। इन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा के करीमगंज सेक्टर के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया। सरमा ने आगे कहा कि पुलिस ने प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया। उन्हें तुरंत खदेड़ दिया, जिससे अवैध घुसपैठ रुक गया।

## चंबल की ड्रोन दीदी को मोदी लालकिला से करेंगे सम्मानित

मुरैना (आजाद सिपाही)। चंबल के मुरैना जिले में रहने वाली किसान महिला सुनीता शर्मा और खुशबू लोधी अपने हुनर से आधुनिक खेती किसानों के सपनों को साकार कर रही हैं। इन दोनों किसान महिलाओं के हुनर के पीएम नरेंद्र मोदी भी मुरीद हो गए हैं। चंबल की दोनो 'ड्रोन वुमैन' को पीएम नरेंद्र 15



अगस्त को दिल्ली के लालकिले से सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश का

चंबल इलाका जहां महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन इस इलाके में महिलाएं खेती के जरिए इस चंबल का नाम देश भर में रोशन कर रही हैं और ऐसी ही दो किसान महिला सुनीता शर्मा और खुशबू लोधी हैं। जिन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपना मिशन शुरू किया।

ट्रेनिंग ग्वालिअर में ही 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर ड्रोन दीदी का प्रमाण पत्र हासिल किया। खुशबू खुद की 40 बीघा जमीन के साथ आसपास के 15 से 20 गांवों के किसानों के खेतों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव करने जाती हैं। इलाके में इस किसान महिला को 'ड्रोन दीदी' के नाम से बुलाते हैं।

## अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड।

### सार्वजनिक सूचना

प्रायः यह सूचना प्राप्त होती रही है कि राँची जिला (विशेषकर शहरी क्षेत्र में) कई व्यक्तियों के द्वारा जमीन के कागजातों का फर्जीवाड़ा/बल का प्रयोग कर गलत एवं अवैध तरीके से भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है/पूर्व में किया गया है। इस कुकृत्य के निराकरण हेतु पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड के द्वारा एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया है।

एतद् के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले माफिया, जमीन दलाल/माफिया एवं जमीन दलालों को सहयोग करने वाले व्यक्तियों का नाम/पुलिस-सरकारी कर्मी जो जमीन फर्जीवाड़े में सम्मिलित हो का नाम/अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की सूचना/जमीन के फर्जीवाड़े में सम्मिलित कार्यालय एवं विभाग से संबंधित सूचना अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के निम्नांकित ई-मेल आईडी/व्हाट्सएप नं0/दूरभाष नं0 के माध्यम से दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर भी संबंधित अभिलेखों को जमा करा सकते हैं।

e-mail id - <ig-orgcid@jhpolic.gov.in> (IG, OC, CID)

WhatsApp No.- 9771432105 (IG, OC, CID),

9771432106 (Addl. SP, CID)

Telephone No.- 0651-2910660 (Addl. SP, CID)

निवेदक :- अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड।

P.R. 332596 (CID) 24-25





# निरसा विधानसभा सीट भाजपा के लिए बड़ी चुनौती

## अपर्णा सेनगुप्ता को सीट बचाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत

झारखंड में विधानसभा चुनाव -2024 की आहट तेज है, इसी साल चुनाव होने हैं। तीन महीने का समय बचा है। इस लिहाज से झारखंड में सत्ता की महाभारत को लेकर रणनीति बनाये जा रहे हैं। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के घटक दल सत्ता में पुनः वापसी को लेकर रणनीति पर काम कर रहे हैं तो विपक्ष एनडीए गठबंधन सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाने और उस पर अमल करने की जद्दोजहद में जुटा है। महाभारत युद्ध की तरह एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एक-दूसरे के खिलाफ व्यूह रचना की तैयारी शुरू कर दी है। महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख मिलता है। चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, क्राँच व्यूह, मकरव्यूह, कछुआ व्यूह, अर्ध चंद्रकार व्यूह, मंडलाकार व्यूह, चक्रशकट व्यूह, वज्र व्यूह, औरमी व्यूह, श्रीनगातका व्यूह... जैसे व्यूह पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बनाये थे। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना

का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाये। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखायी देती है। जैसे क्राँच व्यूह है, तो आसमान से देखने पर वक्रव्यूह की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखायी देती है। आप सोच रहे होंगे कि महाभारत के व्यूह की बात क्यों कह रहे हैं। दरअसल, साल 2024 के अंत तक होनेवाला झारखंड विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही इस चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। झारखंड की सत्ता के महाभारत में सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद-माले आक्रामक तेवर के साथ एक-एक विधानसभा सीट की गणित को बारीकी से

समझ रहा है और प्रत्याशी चुनने के लिए भी सभी समीकरण, नीति तथा व्यूहरचना पर काम कर रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन, भाजपा और झारखंड में अपनी उपस्थिति मजबूत करने को लेकर व्यूहरचना में जुटा हुआ है। भ्रष्टाचार, आदिवासियों पर जुल्म, राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था, संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी जहां भाजपा एवं सहयोगी एनडीए घटक दलों का हथियार है। वहीं भाजपा की तानाशाही, झारखंड की उपेक्षा, झारखंड की अस्मिता, झारखंड के मूलवासियों की लड़ाई, इडी-सीबीआइ जैसे हथियार का आक्रामक प्रयोग सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन का हथियार बन चुका है। सत्ता के महाभारत में धनबाद कोयलांचल की छह विधानसभा सीटें

महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में धनबाद जिला के छह में से दो पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, जबकि चार विस सीटों पर भाजपा का कब्जा है। सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन सभी छह सीटों पर जीत हासिल करना चाहता है। इसको लेकर घटक दलों से बातचीत का दौर जारी है। वहीं व्यूहरचना के तहत मार्क्सवादी समन्वय समिति (एमसीसी) का विलय सीपीआइ एमएल में हो गया और इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गयी। इस समीकरण से धनबाद जिला की दो विधानसभा सीटें सिंदरी और निरसा में व्यापक असर पड़ेगा। भाजपा को निरसा में जीती सीट बचाने के लिए रणनीति, व्यूहरचना तथा समीकरण पर काम करना होगा। निरसा लालझांड का गढ़ माना जाता है और साल 2019 में पहली बार यहां कमल खिला और अपर्णा सेनगुप्ता विधायक बनीं। निरसा विधानसभा चुनाव में अपर्णा सेनगुप्ता के लिए राह आसान नहीं है। निरसा विधानसभा सीट को लेकर क्या है जमीनी हकीकत और प्रत्याशियों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं **आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता मनोज मिश्रा**

हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौतैय युद्धाय कृतनिश्चयः॥

श्री मद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय, श्लोक 37 में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म के युद्ध में यदि तुम (अर्जुन) वीरगति को प्राप्त होते हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो, तो धरती का सुख पा जाओगे... इसलिए उठो, हे कौतैय (अर्जुन), और निश्चय करके युद्ध करो।

निरसा विधानसभा सीट झारखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यह एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1957 से लेकर साल 2019 तक वामदल का कब्जा रहा है। वामदल के प्रत्याशी यहां से विधायक बनते रहे हैं। साल 2019 में पहली बार यहां कमल खिला और भाजपा से अपर्णा सेनगुप्ता विधायक बनीं। साल 2019 के विस चुनाव में भाजपा को निरसा में 42.1 प्रतिशत यानी 89082 वोट मिले थे और अपर्णा सेनगुप्ता विजयी हुईं, जबकि, एमसीओ के अरूप चटर्जी सीटिंग विधायक रहते हुए हार गये।

इस बार निरसा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि निरसा में कई समस्याओं को अब तक दूर नहीं किया गया है। केएमएसएल, हार्डकोक सहित कई पुराने उद्योग बंद पड़े हैं। 10 वर्ष से बरबोदिया पुल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले सात वर्ष से कुमाराडुबी ओवर ब्रिज के निर्माण की गति कछुआ चाल जैसी है। मैथन और पंचेत डैम के रहते झंका के लोगों को पेयजल के संकट से जूझना पड़ा है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को विवश हैं।

निरसा विधानसभा क्षेत्र में तीन लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें एमसीएसटी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। निरसा में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) तथा 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के

मतदाता हैं। यानी कि 32 प्रतिशत यानी करीब 1.2 लाख एमसीएसटी मतदाता निरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं निरसा विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 14.4 प्रतिशत यानी करीब 45-50 हजार मतदाता हैं। निरसा विधानसभा में बाउरी की संख्या 8.2 प्रतिशत यानी 25-30 हजार, सिंह मतदाताओं की संख्या करीब 17 हजार, मंडल मतदाताओं की संख्या 16 हजार, महतो 11 हजार, गोरई 10 हजार, रे 8 हजार, यादव 7 हजार, दास 6 हजार, प्रसाद 5 हजार, शर्मा 5 हजार हैं। वहीं निरसा विधानसभा क्षेत्र में मरांडी 7 हजार, घुम्पू 6 हजार, हेम्ब्रम 5 हजार, टुडू 5 हजार तथा मांझी-मुसहर मतदाताओं की संख्या 5 हजार है। जबकि, हांसदा, किस्कू 3-3 हजार मतदाता हैं। इसके अलावा निरसा विधानसभा में भुइयां, गोप, मोदी मतदाताओं की संख्या भी 5-5 हजार है। जबकि, रवानी, कुमार, पासवान, ठाकुर, रविदास आदि कुल 17-20 हजार मतदाता हैं।

निरसा विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या 38.6 प्रतिशत यानी करीब 1.30 लाख है, तो वहीं ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 61.39 यानी करीब 2 लाख है। प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला ग्रामीण वोटों के हाथों में रहता है। बीते लोकसभा चुनाव के दरम्यान निरसा के वोटों ने भाजपा पर अपार स्नेह जताते हुए दुल्लू महतो के पक्ष में बंपर मत दिया था। निरसा की जनता ने भाजपा को करीब 1 लाख 40 हजार वोट दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बंपर वोटिंग देखने को मिली, जिसका फायदा भाजपा के पक्ष में गया। वहीं साल 2019 के लोस चुनाव में भी भाजपा को 69 फीसदी यानी 1 लाख 29 हजार के करीब वोट मिला था, जिसका फायदा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मिला और भाजपा लालखंड निरसा में पहली बार कमल खिलाने में सफल साबित हुईं। भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता ने दो बार निरसा से लगातार विधायक रहे अरूप चटर्जी को करीब 25 हजार मतों के अंतर से हराया। भाजपा का यहां साल 2014 के मुकाबले 17 प्रतिशत वोट भी बढ़ा। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को



निरसा विस क्षेत्र में 42.2 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि, साल 2014 में भाजपा को 25.1 प्रतिशत वोट मिले थे। यहां बता दें कि साल 2014 में भाजपा ने गणेश मिश्रा को टिकट दिया था और उन्होंने एमसीओ के अरूप चटर्जी को कड़ी टक्कर दी थी और महज 1 हजार 35 वोट से हार गये थे। गणेश मिश्रा को 50546 मत मिले जबकि अरूप चटर्जी को 51581 मत मिले थे। वहीं साल 2009 में भाजपा ने अशोक कुमार मंडल को टिकट दिया था और उन्हें 33088 यानी 21.21 प्रतिशत मत मिले, जबकि अरूप चटर्जी को 68965 यानी 43.8 प्रतिशत वोट मिले थे।

### निरसा की परिस्थितियां अलग, समीकरण अलग

साल 2024 के विधानसभा चुनाव में निरसा की परिस्थिति, समीकरण और जनदेश साल 2019 के मुकाबले में अलग कहा जा सकता है। साल 2019 में राज्य में भाजपा गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी। वहीं वर्तमान में इस बार राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है। साल 2019 में जहां एमसीओ के टिकट से अरूप

## आजाद सिपाही विशेष

चटर्जी चुनावी मैदान में उतरे थे, वहीं साल 2024 विस चुनाव में सीपीआइएमएल के टिकट से चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल, एमसीओ का विलय सीपीआइ एमएल में हो गया है। संकेतों के मुताबिक अरूप चटर्जी सीपीआइ एमएल के टिकट से चुनावी दंगल में शामिल होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है सीपीआइ एमएल ने इंडिया गठबंधन के सामने निरसा और सिंदरी सीट की मांग रखी है। यदि इंडिया गठबंधन निरसा और सिंदरी सीट सीपीआइ एमएल को देने का फैसला लेती है तो अरूप चटर्जी बेहद मजबूत स्थिति में होंगे और एनडीए के लिए अरूप चटर्जी का तोड़ बड़ी चुनौती होगी।

### एनडीए के लिए अरूप चटर्जी का तोड़ बड़ी चुनौती

इंडिया गठबंधन का निरसा विस से संयुक्त उम्मीदवार यदि अरूप चटर्जी होते हैं तो एनडीए के लिए अरूप चटर्जी का तोड़ बड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भले साल 2019 का चुनाव अरूप चटर्जी हार गये, लेकिन अरूप चटर्जी के वोट शेयरिंग में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। साल 2019 में अरूप चटर्जी को 30 प्रतिशत वोट

मिले ,जबकि साल 2014 में 25.6 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि, साल 2009 में अरूप चटर्जी को 43.8 प्रतिशत वोट मिले थे। अरूप चटर्जी का लक्ष्य साल 2009 में मिले वोट की बराबरी का है। इसके लिए वे पिछले पांच सालों से निरसा विस क्षेत्र में जहां संगठन को मजबूत करने, कैडर बढ़ाने, युवाओं तथा महिलाओं को अपने पक्ष में करने के जम कर पसीना बहाया है। वहीं वोट शेयरिंग के लक्ष्य को पाने को लेकर समीकरण जुटाने, व्यूह रचना करने से भी पीछे नहीं हैं। निरसा में भाजपा और एमसीओ के बाद जेएमएम के वोट हैं। यदि इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी अरूप चटर्जी होते हैं तो 14 प्रतिशत वोट में बढ़ोतरी सामान्य बात होगी। और यह स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। वहीं अरूप चटर्जी का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई काम किये हैं और आगे भी विकास का काम जारी रखेंगे।

### निरसा से अमर बाउरी के लड़ने की अटकलें

निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष

अमर बाउरी को टिकट मिलने से चंदनकियारी का मसला सुलझ जायेगा और भाजपा अपनी जीती सीट भी बचा सकती है।

### क्या करेंगे अशोक मंडल, बड़ा सवाल

अशोक कुमार मंडल एक ऐसा नाम, जिन्होंने भाजपा पार्टी को निरसा विधानसभा में मजबूत बनाया। लालखंड में भाजपा को खड़ा करने में पूरा योगदान दिया। इनको फायदा मिला और भाजपा ने साल 2009 में निरसा से चुनावी मैदान में उतारा। अरूप चटर्जी के 68965 वोट के मुकाबले अशोक मंडल को 33388 वोट मिले और वे चुनाव हार गये। इस चुनाव में एआइएफबी के टिकट से चुनाव लड़ी अपर्णा सेनगुप्ता तीसरे स्थान पर थीं और उन्हें 17597 वोट मिले थे। लेकिन, साल 2014 में अशोक कुमार मंडल ने पाला बदल लिया और जेएमएम से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार वह तीसरे स्थान पर खिसक गये। आगामी विधानसभा चुनाव-2024 में अटकलें हैं कि जेएमएम निरसा से प्रत्याशी नहीं उतारेगा और अरूप चटर्जी को समर्थन देगा। ऐसे में सवाल है कि अब अशोक कुमार मंडल क्या करेंगे? हालांकि, होगा क्या यह तो भविष्य के गंभ में है, लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक मंडल झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां बता दें कि अशोक मंडल लगातार छह बार विधानसभा चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन हीसला पस्त नहीं हुआ है।

### अपर्णा सेनगुप्ता की घटती जा रही है साख

मौजूदा निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता की साख दिनोंदिन घटती जा रही है। अपर्णा 2005 में अपने पति सुशांतो सेनगुप्ता की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव जीत कर मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन, साल 2009 एवं साल 2014 के चुनाव में निरसा के जनदेश ने अपर्णा सेनगुप्ता को तीसरे स्थान पर खड़ा कर दिया था। अपर्णा सेनगुप्ता एआइएफबी के टिकट से चुनाव लड़ी, लेकिन, निरसा के जनदेश में उन्हें दोनों ही बार 11 फीसदी वोट मिला।

अपर्णा सेनगुप्ता के मुकाबले भाजपा के गणेश मिश्रा और अशोक मंडल को दोगुना अधिक वोट मिला था। साल 2019 में अपर्णा सेनगुप्ता ने भाजपा का दामन थामा और प्रचंड बहुमत से विजयी हुईं। लेकिन, झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनने से अपर्णा को फायदा नहीं मिला, जिसका खामियाजा निरसा की जनता को भुगतना पड़ा है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार दुल्लू महतो के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान मौजूदा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता का भारी विरोध जगह जगह देखा गया। अपर्णा सेनगुप्ता जनदेश की कसौटी पर खरा नहीं उतर पायी हैं। निरसा की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। अपर्णा के लिए निरसा जीत की राह बेहद मुश्किल दिख रही है।

### 1957 में टुंडी से अलग हुई निरसा विधानसभा सीट

टुंडी और निरसा को मिला कर विधानसभा का गठन निरसा विधानसभा 1952 में किया गया था। 1957 के चुनाव में टुंडी को निरसा से अलग कर अलग विधानसभा क्षेत्र ही बना दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य से सटा झारखंड का सबसे अधिक पंचायत वाला निरसा विधानसभा है। यहां तीन प्रखंड हैं। निरसा, एय्यारकुंड व कलियासुल। तीनों प्रखंड को मिला कर कुल 68 पंचायतें हैं, साथ ही करीब 286 राजस्व गांव हैं। पश्चिम बंगाल से सटे इस विधानसभा में कई भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन बंगलाभाषी लोगों की संख्या अधिक है। निरसा-टुंडी विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद मजदूर नेता के रूप में काम करने वाले कार्यकर्ता को पहला विधायक बनने का गौरव मिला था। यहां से परचम काँग्रेस के रामनारायण शर्मा ने 1951 में लहराया था। पांच बार काँग्रेस की कमान यहां रही तो मासस ने भी यहां पांच बार से प्रतिनिधित्व किया है। कृपाशंकर चटर्जी भी निर्दलीय दो बार चुनाव 1977 और 1980 में जीत चुके हैं। कुल मिला कर यहां मजदूर नेता की ही जीत होती रही है। वहीं पहली बार साल 2019 में निरसा में कमल खिला है।

## लाल रंग का सूटकेस खुलते ही उड़ गये पुलिस वालों के होश 50 लाख कैश के साथ शख्स गिरफ्तार

पैसा कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का, रामगढ़ का रहनेवाला है गिरफ्तार व्यक्ति



### आजाद सिपाही संवाददाता

पटना। पटना जंक्शन स्थित प्लेटफार्म नंबर 1 से आरपीएफ की टीम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे एक व्यक्ति से 50 लाख रुपये से भरा एक सूटकेस जब्त किया है। उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि सूटकेस में पैसा है लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इसमें कितना पैसा है, जिसके बाद इसकी सूचना जीआरपी और आयकर विभाग को दी गयी।

जब सूटकेस को खोला गया, तो उसमें 50 लाख रुपये कैश मिला है। बजरंग ठाकुर नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि यह पैसा झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर का है। वहीं पटना में किसी व्यक्ति को यह डिलीवरी देनी थी। फिलहाल आरपीएफ की टीम और आयकर विभाग की टीम ने पवन ठाकुर से

भी जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।

### क्या बोली रेलवे पुलिस?

पटना आरपीएफ की टीम ने बताया कि पुलिस प्लेटफार्म नंबर एक पर गश्ती कर रही थी, तभी हमारी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उसके पास लाल रंग का सूटकेस था, जिसके बाद वह व्यक्ति पुलिस को देख कर घबरा गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और नये चमचमाते लाल रंग के सूटकेस को जब खोला गया, तो उसमें से 50 लाख रुपये बरामद हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जायेगी।

## बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, निशिकांत समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी, 14 अगस्त को अगली सुनवाई

### आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थांना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में सरकार की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गयी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया



था। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। कोर्ट ने प्राथी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, दुल्लू महतो समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर 14 अगस्त तक रोक जारी रखी है। दरअसल, कार्यक्रम के तहत

निशिकांत दुवे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

### क्या है मामला

भाजपा की ओर से खनिज समृद्ध राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मौजूदा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। उस दौरान क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी थी। सचिवालय तक मार्च पूर्व

मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था।

### पुलिस का क्या है आरोप

पुलिस के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोलतों और पत्थर फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गये थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।





# गठबंधन सरकार में बच्चे भी हुए हताश : बाबूलाल मरांडी

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
रांची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। टवीट कर कहा है कि न किताने मिली, न साइकिल मिली और न ही मिली पोशाक। इस गठबंधन सरकार में बच्चे भी हुए हताश। शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए तीन महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन छात्रों को ना तो किताने मिली है, ना साइकिल मिली है, और ना ही स्कूली पोशाक मुहैया कराया जा सकी है। झारखंड के भविष्य को नंगे पैर स्कूल जाने को विवश किया जा रहा है।



## घुसपैठियों को शरण देने से आदिवासी भाई और बहनों के हक पर सेंधमारी

बाबूलाल ने अपने दूसरे टवीट में कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों के हक-अधिकार में सेंधमारी कर रही है। हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बसा कर और आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रच कर अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

जाना पड़ रहा है। प्रदेश के 34 लाख बच्चों का भविष्य हेमंत सरकार के छत्र विरोधी रवैये से अधर में अटका हुआ है। केंद्र द्वारा 60% राशि मुहैया कराये जाने के बाद भी हेमंत सरकार नौनिहालों के

भविष्य को लेकर असवेदनशील नजर आ रही है।

बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सरकार गरीबों और मजदूरों की जान की दुश्मन बन गयी है। हुसैनाबाद अनुमंडल में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का संचालन पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा है। 5 रुपये में मिलने वाला भरपेट भोजन दिहाड़ी मजदूरों को नसीब नहीं हो रहा है। किसी तरह चार महीने तक केंद्र संचालकों ने अपने खर्च से भोजन तो मुहैया कराया, लेकिन अब भोजन मुहैया कराने के लिए संचालकों के पास भी पैसे नहीं बचे हैं, इसके बाद भी हेमंत सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस असवेदनशील सरकार में गरीबों और मजदूरों को भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है, भूखे पेट सोना पड़ रहा है। गरीबों और गरीबी का मजाक बनती हेमंत सरकार में जन कल्याण के नाम पर सिर्फ अपना कल्याण किया जा रहा है।

## बच्चों को तैर कर जाना पड़ रहा स्कूल

बाबूलाल ने लिखा है: जहां मुख्यमंत्री के पैर बारिश की वजह से सड़कों तक में नहीं पड़ते हैं, वहां बच्चों को स्कूल भी तैर कर

# जुडको : नगर विकास मंत्री के साथ वार्ता में नहीं बनी बात, हड़ताल जारी

**आजाद सिपाही संवाददाता**  
रांची। जुडको अधिकारियों-कर्मियों की लगातार छठे दिन की हड़ताल से जुडको से संचालित लगभग सभी योजनाओं का काम प्रभावित हो गया है। शहरी विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री हर्षीजुल हसन के साथ उनके आवास में जुडको के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। मंत्री आवास में हुई वार्ता में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। विभागीय मंत्री ने वेतन बढ़ोतरी के मसले पर पदाधिकारी से बात करने की जरूरत बात कही। जुडको के पदाधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं पाने के बाद वापस फिर कचहरी स्थित कार्यालय लौट



गये और कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साथ फिर से हड़ताल पर बने रहने का संकल्प लिया। बता दें कि जुडको के कर्मी वेतन-मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर काम ठप किये हुए हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति के बाद से ही उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिस वजह से हताशा का माहौल है। जबकि, जुडको के

सितंबर तक कराने की योजना है। गुमला एवं सिमडेगा नगर परिषद में फिस्कल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 31 अगस्त तक पूरा कराने का लक्ष्य है। निर्माण ठोस अपशिष्ट प्लांट के काम में तेजी लाने का निर्देश है। शहरी आजीविका मिशन के कार्यों को 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया गया है। परिया लेवल फेडरेशन के शतप्रतिशत लक्ष्य को 30 सितंबर तक पूरा करने को कहा गया है। पीएम आवास योजना शहर के छत स्तर तक बने घरों को 31 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी तरह कांटोली प्लाईओवर, रविंद्र भवन और ट्रांसपोर्ट नगर योजना का काम भी प्रभावित हो गया है। योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है।

# हर विधानसभा से बीएलओ को सम्मानित करेगा चुनाव आयोग

जारी की लोकसभा जेनरल इलेक्शन 2024 की स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट



प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए वेबसाइट [www.jharkhand.india-electionsquizz.com](http://www.jharkhand.india-electionsquizz.com) पर 16 अगस्त से 26 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जिलों में इलेक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मियों, पदाधिकारियों को छोड़ कर कोई भी वैध वोटर इसके

लिफ्ट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हर जिले के टॉपर (कुल 24) के बीच ऑनलाइन क्विज परीक्षा 29 सितंबर को होगी। ऑफलाइन टेस्ट 5 अक्टूबर को होगा। टॉप तीन कैडिडेट को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये दिये जायेंगे। हर जिले के टॉपर को दस हजार रुपये दिये जायेंगे। मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ओएसडी गीता चौबे और इंडियन स्टेटिस्टिकल के प्रतिनिधि आरके ठकुराल भी मौजूद थे। इस दौरान सीहओ और अन्य अधिकारियों ने इलेक्शन क्विज और सैल्यूट टू बीएलओ से संबंधित पोस्टर भी जारी किये।

# हेमंत सरकार कर रही तुष्टीकरण की राजनीति बांग्लादेशी घुसपैठिये झामुमो के वोटर बन गये हैं : बाउरी

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हेमंत सरकार कार्रवाई करने से उर रही। ये घुसपैठिए झामुमो के वोट बैंक बन चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार इनका संरक्षक बनी हुई है। कहा कि घुसपैठिए आदिवासी दलित समाज के लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे। बहन बेटियों से शादी कर के जमीन पर कब्जा कर रहे। इतना ही नहीं हिंदू आबादी को अपना



घर द्वार छोड़ कर भागने को मजबूर कर रहे। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में तारानगर, गोपीनाथपुर, गाय बथान जैसे गांव में घुसपैठियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। कहा कि घुसपैठिये

राज्य को दौकक की तरह चाट रहे और राज्य सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उच्च न्यायालय ने घुसपैठियों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिये हैं, फिर भी हेमंत सरकार घुसपैठियों को लीपापोती में लगी हुई है। कहा कि बाहर में राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से इंकार करती है, वहीं कोर्ट ने एफिडेविट कर स्वीकार भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी।

# जायजा : नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन की टीम पाकुड़ पहुंची, मारपीट की ली जानकारी गायबथान में आदिवासियों के साथ जुल्म और अन्याय हुआ : आशा लकड़ा

**कार्तिक कुमार**  
पाकुड़ (आजाद सिपाही)। नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन की तीन सदस्यीय टीम सोमवार को पाकुड़ पहुंच कर गायबथान गांव और केकेएम कॉलेज में हुई घटना को लेकर जांच की। आयोग गाय बथान के ग्रामीण और छात्रवास के छात्रों से मिली। तीन सदस्यीय टीम में सदस्य निरुपम चक्रमा, डॉक्टर आशा लकड़ा, मिरांडा इंदुगम ने गायबथान गांव में 18 जुलाई को आदिवासी और अल्पसंख्यक परिवार के बीच हुई मारपीट की घटना के बारे में पीड़ित परिवार से जानकारी ली। फिर पाकुड़ पहुंच कर केकेएम कॉलेज के छात्रवास के छात्रों से

कह-आयोग ने दोनों घटनाओं को संज्ञान में लिया है, सीएस और डीजीपी को कार्रवाई की करेगे अनुरोध मिल कर 26 जुलाई की रात हुई घटना के बारे में उनसे पूछताछ की। छात्रों और गाय बथान के लोगों से मिलने के बाद आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मीडिया को बताया कि गायबथान में आदिवासियों के साथ जुल्म और अन्याय हुआ है। करीब डेढ़ सौ बांग्लादेशी परिवार के लोगों ने बाहर से आकर आदिवासी की जमीन को कब्जा कर लिया है। गांव के लोगों के साथ मारपीट होने के बाद उन्हें ना



तो प्रशासन की तरफ से उनका इलाज कराया गया और ना ही मुकदमा। भरे द्वारा दुमका के आड़जी और पाकुड़ एसपी को संज्ञान में देने के बाद केस दर्ज किया गया और फिर घायल लोगों का इलाज हुआ। आशा लकड़ा ने बताया कि छात्रवास के छात्रों के साथ 26 जुलाई की रात को मारपीट की गयी, जाति सूचक

गाली देते हुए पुलिस किसी महिला का किडनैप होने की बात कह कर खोजबीन करने वहां पहुंची थी और सोधे छात्र के साथ मारपीट करने लगे। बेरहम तरीके से छात्रवास के छात्रों के साथ मारपीट की गयी। इस पूरे मामले को आयोग ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर रही हूं और निश्चित रूप से यहां के लोगों को न्याय मिले मिलेगा। छात्रवास में आज छात्रों को मूलभूत सुविधा दिलाने में जिला प्रशासन यहां नाकाम है। छात्रवास में ना तो पानी की सुविधा है, ना सही ढंग से बिजली की सुविधा है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है, वह बेहद ही

दुखद है। वह इस पूरी घटना के बारे में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी और देश के गृह मंत्री को अवगत करा कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की अनुरोध करेगी। आयोग ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। कई आदिवासी संगठनों के साथ भी बैठक की। आयोग के द्वारा जांच के दौरान आर्टीडीए के डायरेक्टर और जिला कल्याण पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महेशपुर विजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ दयानंद आजाद, सिविल एसडीओ पाकुड़ प्रवीण केकेके और प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव मौजूद थे।

**E-mail - mdjscb@jscb.gov.in Ph. No. 0651-2913111**  
**Jharkhand State Cooperative Bank Ltd. Ranchi**  
1<sup>st</sup> Floor, Shaheed Chowk, Main Road, Ranchi- 834001  
Ref.:1312 Date:12.08.2024  
Jharkhand State Cooperative Bank Ltd. is conducting its AGM on 4<sup>th</sup> September 2024. JSGB Invites RFOs from interested parties / bidders for selection of following independent service providers for Jharkhand State Cooperative Bank Limited:-  
1. Catering Services 2. Tent Works 3. Printing Works  
Last date for submission of Quotations: 20.08.2024 till 11.00 AM.  
For RFOs eligibility criteria and other details, please visit website: <http://www.jscb.gov.in>  
Sd/-  
CEO, JSGB Ranchi

# हाइकोर्ट से मंजूनाथ भजंत्री को राहत

सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दर्ज एफआइआर निरस्त

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे को हवाई जहाज से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोके जाने के खिलाफ दिल्ली में जीरो एफआइआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिल्ली में दर्ज जीरो एफआइआर के आधार पर देवघर में दर्ज एफआइआर को निरस्त कर दिया।



## तया है मामला

सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे, तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाये गये सारे आरोप निराधार है, इसलिए इससे संबंधित जीरो एफआइआर को रद्द किया जाये। दिल्ली में दर्ज करायी गयी जीरो एफआइआर झारखंड पुलिस को सौंप दी गयी थी, जिसके आधार पर देवघर में कुंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

# राजधानी में लगेंगे नौ उद्योग बेकरी से लेकर स्पेयर्स पाटर्स प्रोजेक्ट्स को मिली स्वीकृति

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। राजधानी में आनेवाले समय में कई नये उद्योग लगेंगे। इसके लिये उद्योग विभाग और जियाडा की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जियाडा की ओर से राजधानी के लिए नये उद्योगों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। इसके तहत नौ नये प्रोजेक्ट्स को जियाडा ने स्वीकृति दी है। ये उद्योग रांची जिला के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्र में लगाये जायेंगे। जियाडा की मानें तो इन उद्योगों के लिए काफी पहले आवेदन दिया गया था। प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति देने के साथ ही इन उद्योगों के लिए क्षेत्र आवंटित गया है।



बरही, तुपुदाना इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थापित किये जायेंगे। बेकरी प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, मैनुफैक्चरिंग ऑफ एनिमल फीड, स्टारज ऑफ ऑक्सिजन सिलेंडर्स, बेवरी प्रोजेक्ट, सेल ऑफ स्पेयर पाटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना से राज्य में रोजगार का सृजन संभव होगा। इसके पहले जियाडा की ओर से राज्य के लिए 21 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गयी थी। इसमें कुछ

प्रोजेक्ट्स रांची, देवघर, गिरिडीह समेत अन्य जिलों के लिए प्रस्तावित हैं। उद्योग विभाग की मानें तो राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योगों के स्थापित होने से ग्रामीणों और राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए चतरा और रामगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे राज्य में आगामी कुछ सालों में अधिक से अधिक उद्योग लगाये जा सकें।

**राशिफल**  
डॉ एनके बेरा | 9431114351

**मेघ** नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना। उच्चस्तरीय लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करना।

**वृष** सरकारी कार्य करने का अवसर मिलेगा, राजनीतिक लाभ, कार्यक्षेत्र में सौजन्यक प्रगति होगी।

**मिथुन** प्रभावशाली लोगों के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी।

**कर्क** औद्योगिक सफलता और संबंध बढ़ाने, आर्थिक विकास में सुविधा, धन-द्वय का लाभ।

**सिंह** विवाह, शादी, प्रेम संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

**कन्या** आर्थिक उन्नति, परिवारिक सुख, स्वास्थ्य में सुधार।

**तुला** नौकरी के अवसर, नौकरियों, विदेशी यात्रा के अवसर।

**वृश्चिक** विदेशी यात्रा, नौकरी, स्वास्थ्य में सुधार।

**धनु** सुख-समृद्धि की वृद्धि, विद्या-वृद्धि, प्रतिभा का विकास होगा।

**मकर** मन-साहित्यिक प्रयास सफल होगा, सफलता की प्राप्ति।

**कुंभ** आर्थिक सुख, दिनांगी लाभ वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

**मीन** नौकरियों का निराकरण होकर नौकरी में सुधार मिलेगा।

## एनडीपीएस से जुड़े मामले में 10 साल की सजा

रांची। करीब 26 किलो गांजा बरामदगी मामले के दोषी इन्फेयज अंसारी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जमाने की राशि नहीं देने पर उसे नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

# स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जिला मुख्यालय में मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन

**आजाद सिपाही संवाददाता**

रांची। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के अवसर पर झारखंड राज्य के मंत्रियों द्वारा जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया जायेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी किया है और सभी उपायुक्तों को आवश्यक तैयारी के लिए पत्र लिखा है। मुख्य कार्यक्रम मोरहाबादी रांची और दुमका में होगा। कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन, सरायकेला-खरसावां जिला, रामेश्वर उरांव, लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता, चतरा, बैद्यनाथ



राम, लातेहार, दीपक बिरुआ, पश्चिम सिंहभूम, बनना गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम, इरफान अंसारी, जामताड़ा, मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा, हर्षीजुल हसन, देवघर, बेबी देवी, बोकारो, दीपिका पांडेय सिंह गोड्डा में झंडोत्तोलन करेंगे।

# गोड्डा सांसद निशिकांत कल छात्रों से करेंगे मुलाकात

पाकुड़ (आजाद सिपाही)। भाजपा के नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को पाकुड़ पहुंचेंगे। निशिकांत गाय बथान गांव में पिछले दिनों हुई घटना से पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उसके बाद केकेएम कॉलेज के छात्रवास के छात्रों से मिलेंगे। इसके बाद गोपीनाथपुर गांव जायेंगे, जहां पिछले दिनों सांप्रदायिक घटना हुई थी। सांसद के आमजन के बारे में जानकारी पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश शुक्ला उर्फ पिंकू शुक्ला ने दी है।

**दलित महिला के साथ मारपीट के मामले में आयोग गंभीर पाकुड़ (आजाद सिपाही)।** एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट की घटना और हिरणपुर थाना के द्वारा एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज न किये जाने पर नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। पाकुड़ में आयोग से एक दलित महिला ने अपनी आप बीती आयोग की सदस्य आशा लकड़ा को सुनायी। पीड़ित महिला प्रियंका देवी का आरोप है कि राम पंडित, लखन पंडित, सुमन भंडारी, सचिन भंडारी, सोनू सोनू भंडारी, कनेश शाह ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गाली दी। इस घटना को लेकर जब थाने में लिखित शिकायत दी तो थाना प्रभारी के द्वारा दर्ज आवेदन को बदल दिया गया और साधारण मारपीट की घटना उन्क कर दी गयी।



महत्वपूर्ण खबरें

यूनिक एकेडमी में सावन उत्सव मनाया गया



रांची (आजाद सिपाही)। यूनिक एकेडमी डांस एंड फिटनेस स्टूडियो बरियातू में सावन उत्सव मनाया गया। सावन उत्सव का आयोजन एकेडमी के संचालिका प्रिया केसरी ने किया इस उत्सव में महिलाओं और लड़कियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया हर तरफ सावन की हरियाली छाई हुई थी सभी लोगों ने सावन से संबंधित गाने में डांस किया और गाना गया रैंप वॉक पे अपना जलवा बिखेरने के साथ-साथ बहुत सारे गेम खेला और एन्जॉय किया मिस सावन क्वीन प्रियंका बानी और मिससेज सावन क्वीन आशु गुप्ता बानी और भी बहुत सारी प्रतियोगिता में महिलाओं ने हिस्सा लिया और गिफ्ट जीता एकेडमी के तरफ से सभी महिलाओं को पूरक उपहार मिला और इस सावन उत्सव में हर उम्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत आनंद लिया. इस तरह सावन उत्सव का समापन हुआ।

मेहंदी और राखी प्रतियोगिता का आयोजन



रांची (आजाद सिपाही)। सोमवार को शहीद शेख भिखारी कॉलेज आफ एजुकेशन में मेहंदी एवं राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें सभी वीएड प्रशिक्षार्थियों ने मेहंदी एवं राखी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डा. सपना त्रिपाठी सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं वीएड प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. सपना त्रिपाठी ने आयोजन के समापन पर कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

आमरेश्वर धाम में बड़ागाई के श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ पर किया जलाभिषेक

रांची (आजाद सिपाही)। शहर के बड़ागाई के हनुमान क्लब के उपाध्यक्ष अशोक साहू के नेतृत्व में सोमवार को श्रावणी सोमवार के पावन वेल में लगभग 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने खुटी स्थित आमरेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया। सुबह श्री श्री महादेव मंदिर, बड़ागाई में पूजा-अर्चना कर नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ श्री श्री पंचदेव मंदिर प्रारंभ हुए। सभी श्रद्धालुओं ने श्री श्री पंचदेव मंदिर स्थित देवी देवताओं का पूजन किया। इसके बाद शोभा यात्रा के रूप में नाचते गाते हुए सभी श्रद्धालु बड़ागाई चौक पहुंचे, जहां से वाहन के माध्यम से आमरेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। इस जत्था में मुख्य रूप से शंकर साहू, प्रेम साहू, रोहित कुमार, राहुल कुमार, बबीता देवी, ममता देवी, आशा देवी, सहोदरा देवी, प्रताप कुमार सहित कई अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।

सीबीसी पीआइबी के कर्मियों ने ली नशामुक्त भारत अभियान की शपथ

रांची (आजाद सिपाही)। रांची स्थित सीबीसी पीआइबी के प्रादेशिक कार्यालय में कर्मियों ने अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा के सामने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे #नशा मुक्त भारत अभियान के पांचवें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण किया।

सीसीएल में दो दिवसीय राजभाषा तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

रांची (आजाद सिपाही)। सीसीएल मुख्यालय, रांची स्थित प्रकाश हॉल में दो दिवसीय (12-13 अगस्त, 2024) राजभाषा तकनीकी कार्यशाला आरंभ हुआ। इसका विषय उच्चस्तरीय एमएस ऑफिस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। कार्यशाला का उद्घाटन सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) हर्ष नाथ मिश्र ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य प्रबंधक, एडवांस माइक्रोसाफ्ट के विशेषज्ञ ओम प्रकाश अग्रवाल थे। हर्ष नाथ मिश्र ने कहा कि ऑफिस के साथ-साथ दैनिक जीवन में भी कंप्यूटर की अनिवार्यता हो गयी है। आज की कार्यशाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि तकनीक के साथ राजभाषा को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी पर है। महाप्रबंधक (अ.स्था/राजभाषा) संजय ठाकुर ने कहा कि हमारे दैनिक कार्यनिष्पादन में एमएस वर्ड,एक्सेल से संबंधित जो भी समस्या आती है वह इस कार्यशाला से निश्चय ही हल हो सकता है। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता ओम प्रकाश अग्रवाल कम्प्यूटर की नवीनतम तकनीकों विशेषकर एमएस वर्ड के विभिन्न तकनीकी पहलुओं एवं टूल्स से प्रतिभागियों को अवगत कराया। इस कार्यशाला दिविक दिवेश, बलिराम सिंह सहित अन्य के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है।

अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को 270वीं जयंती मनी



रांची (आजाद सिपाही)। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में हटिया स्थित शाहदेव स्मारक स्तंभ के प्रांगण में सुबह 10:30 बजे, ठाकुर निवास बडकगढ़ जगन्नाथपुर में अमर शहीद की अदमकद प्रतिमा पर 9:30 बजे श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। सेक्टर 2 में शाम के 5 बजे श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। समाारोह के मुख्य अतिथि पूर्व उपमहापौर अजय नाथ शाहदेव का स्वागत अमर शहीद के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने पुष्पगुच्छ देकर किया। साथ ही मेदांता हॉस्पिटल से आये कुलदीप, डॉ. प्रतिमा कुमारी और पूरी टीम का स्वागत किया गया। इसके बाद नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन अजय नाथ शाहदेव ने किया। स्मारक स्थल के सुंदरीकरण करने एवं शहीद के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव को हर सम्भव मदद करने की बात कही। सभा का संचालन गुरेश्वर सिंह ने किया। मौके पर संतोष राय और अध्ययन केंद्र के मुख्य संरक्षक इंद्र कर, सदस्य सुधीर सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सह संचालन अनिल सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन चंदन कविशान ने किया। कार्यक्रम में परवेज खलीफा, चंदन कविशान, अनिल कुमार सिंह, सीताराम आहदार, सुधीर सिंह, ओमप्रकाश, हरिेश चौधरी, सोमा मुंडा, एतवा उरांव, वैबी कश्यप, कोशल्या देवी, सुनता देवी आदि शामिल हुईं।

# डीसी और एसपी को आदेश हटायें सड़कों से अतिक्रमण

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड अंतर्गत सभी नेशनल हाइवे से अतिक्रमण हटाया जायेगा। राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों और जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से 30 अप्रैल 2024 को एक वाद की सुनवाई में आदेश पारित हुआ था, जिसमें सभी लोकल अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे नेशनल हाइवे से अतिक्रमण हटाने में फील्ड के अधिकारियों का सहयोग करें। इसके बाद केंद्रीय सड़क, परिवहन और हाइवे मंत्रालय की ओर से 10 अप्रैल 2024 को ही



झारखंड सहित सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राष्ट्रीय उच्च पथों के किनारे से अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए राज्यों की भूमिका तय की गयी। पथ निर्माण विभाग झारखंड के अपर सचिव के फील्ड के अधिकारियों का सहयोग करें। इसके बाद केंद्रीय सड़क, परिवहन और हाइवे मंत्रालय की ओर से 10 अप्रैल 2024 को ही

हाइवे और स्टेट हाइवे से अवैध तरीके से घर-मकान-दुकान, ठेला-खोमचा लगाने वाले को हटाने की दिशा में उचित कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत हर तरह के सुरक्षात्मक कदम भी उठाने को कहा गया है। हाइवे व एनएचएआइ की सड़कों से हटते अतिक्रमण पथ निर्माण विभाग ने विभाग अंतर्गत सड़कों के साथ-साथ सड़क, परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय व एनएचएआइ की सड़कों से भी अतिक्रमण हटाने को कहा है। अतिक्रमण की वजह से कई योजनाएं पेंडिंग चल रही है, ऐसे में विभाग ने प्राथमिकता से इन सड़कों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। जाम फ्री आवागमन के लिए सड़कों के लिए अवैध अतिक्रमण हटाया जायेगा। कई हाइवे परियोजना में अतिक्रमण झारखंड में अभी सड़क निर्माण की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है बरवाअड्डा-पानागढ़ सेक्शन जीटी रोड में धनबाद के गोविंदपुर और निरसा बाजार में अतिक्रमण की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह ओरमांडी-गोला-बोकारो एक्सप्रेस-वे में भी कई जगह अवैध निर्माण है। इसके अलावा रांची-कुड़ू-वाराणसी फोरलेन रोड, कोलकाता-रांची-वाराणसी हाइवे सहित अन्य सड़क परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है।

# पहाड़ी बाबा की हुई भव्य संध्या आरती

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। आयोजक नंद किशोर सिंह चंदेल ने कहा कि सोमवार को श्रावण मास की चौथी सोमवारी के दिन रांची के पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार के पास रांची शहर के तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा संध्या 5:00 बजे पहाड़ी बाबा सहित तमाम देवी-देवताओं की भव्य संध्या महाआरती की गयी। महाआरती के बाद बोल वम के नारों से पूरा पहाड़ी परिसर गुंजायमान हो गया। उसके बाद सैकड़ों भक्तों के बीच खीर महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस साल के श्रावण मास के आखरी सोमवारी को भव्य महाआरती 500 महिलाओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनय



सिन्हा दीपू, हरे राम सिंह चंदेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश सिन्हा सन्नी, अंकित सहाय, नवनीत कौर उपस्थित रही। संध्या आरती में इनका रहा योगदान नंद किशोर सिंह चंदेल, उज्ज्वल कुमार सिन्हा, रीना सिंह, केलाशी अरविंद सिंह, गीता सिंह,

विपिन सिंह, डॉ. मुकेश सिंह, मंजुला बेरा, अविनाश सिंह राजपूत, नीलू सिंह, संजय कुमार सिंह, राजू सिन्हा, संध्या देवी, सविता देवी, अलिशा सिंह, अमृत्यु कुमार सिंह, हर्ष कुमार सिन्हा, सुनील यादव, विकास सिंह, अमन ठाकुर, सुनीता पांडे, दीपांजलि गर्ग, दीपमाला वर्मा, ललित साव, मनीष राणा, सुजाता वर्मा, राहुल, मोनू शर्मा, मंजुला बेरा, बासु बेरा, शिल्पी कुमारी वर्मा, नीलम शर्मा, अंजना सिन्हा, आरती वर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, शशि भूषण कौशिक, प्रीति रागनी और अन्य का सराहनीय योगदान रहा।

# पहाड़ी मंदिर में भगवान भोलेनाथ को डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। सावन मास की चौथी सोमवारी पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। सोमवार अहले सुबह से ही भक्त पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध दिखे। तड़के तीन बजे पूरे सनातनी विधि-विधान से रुद्राभिषेक कर उपायुक्त राहुल सिन्हा, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष एनएन पांडेय और बादल सिंह के जरिये संयुक्त रूप से पूजा किया गया। पूजा के बाद अरधा लागा कर सभी भक्तों के लिए पट खोला गया। लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक किया। लोखम के जयकारों से पहाड़ी मंदिर गुंज उठा। पूरे मंदिर परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। समिति के सचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि आज रांची एवं आस पास ग्रामीण क्षेत्रों से भक्तों का जनसैलाब दिखा। समिति के प्रवक्ता बादल सिंह ने कहा कि भक्तों के बीच महाप्रसाद को लेकर काफी उत्साह था। सभी भक्त कारवारबद्ध होकर महाप्रसाद क्रय कर रहे थे। सभी भक्तों से

राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने पांच मंदिरों में दूध, बेलपत्र, फूल, भांग निःशुल्क वितरित की

रांची (आजाद सिपाही)। श्रावण मास के अवसर पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था युवा कमांड, रांची की तरफ से रातू रोड देवी मंडी रोड, हेसल सरोवरनगर स्थित सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, महाभूत्यूज मंदिर इंड्रपूरी रोड नंबर 1, डैम साइड शिव मंदिर में दूध, बेलपत्र, फूल, भांग, सम्मी का पत्ता, अष्टगंध का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की गयी। सहयोग करने वाले में राष्ट्रीय सैनिक संस्था युवा कमांड झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पुट्ट, अशोक पाठक, कौशलेश कुमार प्रजापति, अजीत सिन्हा, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मुन्ना कुमार, ऋषभ कुमार, आयुष कुमार अग्रवाल, राष्ट्रीय सैनिक संस्था महिला विंग की स्वता आर्य, अनुषा कुमारी, प्रेरणा कुमारी शामिल थीं।



मंदिर में लोटा और जल का व्यवस्था किया गया था। संध्या में पहाड़ी बाबा का विशेष श्रृंगार एवं छपन भोग के साथ महाआरती किया गया। इसके अलावा रांची के कंकि, कोकर, बूटी मोड़, बरियातू, हिनु, चुटिया के सुरेश्वर धाम, हरमू, किशोरगंज, लालपुर सहित अन्य शिवालयों में भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना सुबह से देर शाम तक करते देखे गये।

नये प्रशासक संदीप सिंह ने

संभाला पदभार रांची (आजाद सिपाही)। रांची नगर निगम के नये प्रशासक संदीप सिंह ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रशासक अमित कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपा और शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर अपर प्रशासक सौरभ प्रसाद, उप प्रशासक अमर हुसैन, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, मुख्य अभियंता रमा शंकर राम, सहायक प्रशासक मुकेश कुमार, चंद्रदीप कुमार, निहारिका तिकी, निकेश कुमार, सूरज प्रकाश सिंह चौधरी, निगम के अभियंतागण एवं अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

भरे जा रहे लोकायुक्त समेत अन्य महत्वपूर्ण पद रांची (आजाद सिपाही)। हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सूचना आयोग में नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जिस पर अदालत ने सरकार को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

# ट्रैफिक डीएसपी शिवप्रकाश की अगुवाई में चला जांच अभियान



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। ट्रैफिक डीएसपी शिवप्रकाश की अगुवाई में जाकिर हुसैन के पास सोमवार को बिना रूट पास के इ रिक्षा चलाने वालों के खिलाफ जांच की गयी। इस क्रम में 18 इ रिक्षा को जब्त किया गया। 12 स्कूल बस के ड्राइवर को ड्रक टेस्ट किया गया। केरालि स्कूल की बस जेएस 01

एम 4156 के चालक चापा महली को शराब पिया हुआ पाया। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी है। रेडियम चौक से जेल चौक, लालपुर चौक एवं डंगराटोली चौक में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। टीम में लालपुर थाना प्रभारी और यातायात पुलिसकर्मी शामिल थे।

# श्री श्याम मंदिर में चतुर्थ सोमवारी को महादेव की विशेष पूजा-अर्चना

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। हरमू रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में पवित्र श्रावण माह के चतुर्थ सोमवारी के अवसर पर देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना अभिषेक रुद्राभिषेक के साथ महादेव की जय जयकारों से गुंज रहा था। श्री श्याम मंदिर में प्रातः से ही भक्तजन अभिषेक के लिए आने लगे थे। श्री श्याम मंदिर के तरफ से संपूर्ण श्रावण माह के प्रत्येक दिन दूध लौटनी में डालकर अभिषेक के लिए भक्तजनों को दिया जाता है। श्री श्याम मित्र मंडल के प्रथम महामंत्री विश्वनाथ नारसरियां ने बताया कि श्री श्याम मंदिर में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है। जिसकी प्रतिदिन विधि विधान पूजा अर्चना की जाती है। श्री शिव परिवार का प्रतिदिन श्रृंगार पूजा

करने वाले गोपाल खैतान लड्डू बाबू संदीप खैतान अमिताभ खैतान ने विशेष प्रातः कालीन श्रृंगार करके बाबा भोलेनाथ की आरती की। दोपहर के बाद रातू रोड निवासी राजेश सिंह वर्मा सिंह स्मृति सनाया ने अपने परिवारों के साथ महा रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न कराया। गंगाजल दूध दही शहद घृत चीनी इख का रस अनार का रस दाब जल आदि से महादेव का अभिषेक किया गया। 14 वां श्री सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा का पाठ आज श्री श्याम मंदिर में मंगलवार को 114 वां श्री सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा का पाठ संध्या 4:30 बजे से सामूहिक रूप से किया जायेगा। मंडल के मंत्री गौरव अग्रवाल मोनू ने भक्तजनों को आमंत्रित किया है।

# सुरेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया



आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रांची के स्वर्णरेखा नदी तट पर स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर चुटिया में श्रावण महीने के चौथे सोमवार को प्रातः 4 बजे मंदिर का पट शिवभक्तों के जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया। प्रातः से ही शिवभक्तों ने बड़ी संख्या में कतार बढ़ होकर शिवलिंग पर जलभिषेक किया क लगभग 25000 से भी ज्यादा शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। बोल बोम और हर-हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। संध्या में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया और महाआरती हुई। विशेष आरती में धनबाद के डीएसपी

दीपक कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। आरती के उपरांत 111 किलो खीर का भोग वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश साहू, महासचिव संतोष कुमार, ऋतिक राज, संजय कुमार, कृष्णा साहू उर्फ युद्धु, गुजा तिकी, ममपुरुष नायक, रतन लाल, शत्रु नायक, विक्रम साहू, धर्नंजय सिंह, रंजित राम, शत्रु नायक, शंभु साहू,राकेश कुमार साहू, दशरथ सिंह, नरेंद्र साहू समेत सभी मंदिर कमेटी के सदस्य शामिल होकर पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया।

# राष्ट्र जागरण का अभियान है हर घर तिरंगा कार्यक्रम: कर्मवीर सिंह

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को तिरंगा ध्वज स्टाॅल का उद्घाटन फीता काट कर एवं नारियल फोड़ कर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह, प्रदेश कार्यालय मंत्री हेमंत दास, प्रदेश मांडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता रामकांत महतो, राफिना नाम, राहुल अवस्थी, विवेक विकास, तारिक इमरान, मृत्यूज पाठक, गुरविंदर सेठी, संजय चौधरी, संजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलेते हुए



प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार चौथे वर्ष हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्र जागरण का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। प्रत्येक भारत वासी

आजादी के आंदोलन में जान की बाजी लगाने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों को तिरंगा लगा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, नमन करता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इसको अपने अपने घरों पर लगा कर हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हर घर तक ध्वज पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। प्रदेश कार्यालय में तिरंगा ध्वज आम नागरिक की सुविधा के लिए सशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाये और लगाने के लिए प्रेरित भी करें।

शिविर में 78 शिक्षकों की सेवा का सत्यापन

रांची (आजाद सिपाही)। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के 78 प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन किया गया। यह सत्यापन शिक्षकों की बाधा रहित नियमित सेवा के लिए किया जाता है। राजकीयकृत बुनियादी मध्य विद्यालय, नामकुम में प्रखंड के सभी शिक्षकों के लिए सेवा सत्यापन का शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर निकासी एवं वृत्तपदाधिकारी ने कहा कि सभी शिक्षकों का कार्य त्वरित गति से ससमय करने के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। सरकारी सेवक होने के नाते सेवा संहिता के आधार पर हम सभी को अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।





# तिरंगा हमारी आन, बान और शान है : संजय सेठ



आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विगत दो वर्षों से पूरे देश में मनाया जा रहा है। विगत दो वर्षों में जन-जन का अभियान बन चुका है। पूरे देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक एक उत्सव के रूप में उत्साह और उमंग के साथ

मनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। तिरंगा को देखकर देश प्रेम जागृत होता है। देश भावना का दिल में ज्वार फूटता है। हमारा तिरंगा त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के हर घरों में राष्ट्रीय

## आम जनता को झामुमो और भाजपा दोनों को ठगते आ रही है : रोनाल्ड मुर्मू



आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची (आजाद सिपाही)।** लोकहित अधिकार पार्टी की एक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष सह दुमका जिला प्रभारी अनिल टुडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान महासचिव मो अजहर आलम उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि लोकहित अधिकार पार्टी (एलएपी) झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधान महासचिव मो. अजहर आलम ने कहा कि जीत दर्ज करने के लिए कुछ विशेष सीटों को चिह्नित किया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल टुडू ने कहा कि नि:शुल्क शिक्षा और चिकित्सा के साथ हमारी पार्टी वोटर पंशन भी लाना चाहती है। बैठक में सुनील मुर्मू, सामुएल मुर्मू, अमन दुबे, निलकमल दुबे, पॉलुश सोरेन, राजु राय, रंजीत राय, मुकेश सोरेन, कमल टुडू, शांतिलता मुर्मू, मोनिका मराडी, रोजमैरी हेब्रम, धानमनी मराडी, मुंशी मराडी, जय प्रकाश मराडी, आकाश दुबे सहित कई लोग उपस्थित रहे।

## तेली समाज हर क्षेत्र में पिछड़ रहा : सुनील साहू



आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची (आजाद सिपाही)।** साहेबगंज जिला के बरहेट में वरिष्ठ समाजसेवी नंदलाल साह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय तेली साहू महासभा की एक बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि तेली समाज हर क्षेत्र में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और जबतक हम सभी शासक जमायत के गुण को नहीं अपनायेंगे, पिछड़ते ही चले जायेंगे। बैठक में उपस्थित हिरालाल साह, खगेन्द्र साहा, राम बहादुर साह, चंद्रशेखर साह, शिव आनंद, गौरी शंकर साह, प्रदीप कुमार साहा, शिव कुमार साह, भागिरथ साह, ललन कुमार साह, जय कुमार साह, गंगा प्रसाद साह, दीपक कुमार साह, जयशरम प्रसाद साह, अनिल कुमार साहा, पप्पू कुमार साह, सुनील कुमार साह समेत सभी ने एकजुट होकर समाज में राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

## डॉ मृणालिनी अखौरी ने एक से बढ़ कर एक भजनों की प्रस्तुति दी

**रांची (आजाद सिपाही)।** पर्यटन विभाग झारखंड सरकार द्वारा श्रावणी मेला देवघर में विभाग में शिल्पक और बासुकीनाथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देशभर से प्रख्यात कलाकार आकर भगवान भोले शंकर के लिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, जिसमें झारखंड की मशहूर गायिका डॉक्टर मृणालिनी अखौरी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्त जनों को भक्ति विभोर कर दिया, कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित रहे और साथ ही विभाग के पदाधिकारी और संयोजक भी डॉक्टर मृणालिनी अखौरी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते नजर आये। मृणालिनी अखौरी ने कार्यक्रम में सबसे पहले ओम नमः शिवाय भजन प्रस्तुत किया। इसके बाद मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है... गौरी दूद रही किसी ने मेरा भोला देखा और मेरा भोला भंडारी... भजन लोगों को काफी पसंद आया।



आजाद सिपाही संवाददाता

## कार्यक्रम : गोपाल सिंह 'नेपाली' जयंती सह हिंदी कार्यशाला का आयोजन

# 'नेपाली' का स्थान कोई दूसरा लेखक नहीं ले सकता : डॉ संजय पंकज

आजाद सिपाही संवाददाता

**हाजीपुर।** सोमवार पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय/हाजीपुर में गोपाल सिंह 'नेपाली' जयंती सह हिंदी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वरीय साहित्यकार डॉ संजय पंकज ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय/हाजीपुर द्वारा उत्साह पूर्वक 'नेपाली' जयंती का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग गण-मान्य साहित्यकारों की जयंतियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करता रहता



है, ताकि हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़े ही, रेल कार्यालय में सुजनात्मक वातावरण का निर्माण भी हो। डॉ संजय पंकज ने कहा कि 'नेपाली' का स्थान कोई दूसरा लेखक नहीं ले सकता, किसी

रचनाकार की रचनाओं में सच्चाई और यथार्थवादी, प्रगतिशील मूल्य तब उभरते हैं जब उसका जीवन भी हो। डॉ संजय पंकज का वाहक हो। उन्होंने 'नेपाली' की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का सलाह दिया और कहा कि हम 'नेपाली' के ऋणी हैं और उनकी विरासत को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर बोलते हुए डॉ. राकेश रंजन ने कहा कि हिंदी साहित्य की परंपरा में गीतकार 'नेपाली' का

## केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रांची महानगर और सभी मंडल के नवनि्युक्त पदाधिकारी को सम्मानित किया

**रांची (आजाद सिपाही)।** केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने सोमवार को रांची महानगर की नयी टीम और 19 मंडलों के नवनि्युक्त मंडल के अध्यक्ष को अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया। सभी कर्मयोगी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दिया। इस अवसर पर संजय सेठ ने कहा कि भाजपा एक परिवार है और हम सब लोग एक परिवार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सब एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, हम सब उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। इसलिए आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। इस अवसर पर कांके विधायक समरी लाल, रांची महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू, महामंत्री बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, युवा मोर्चा रांची महानगर के अध्यक्ष रोहित नारायण सिंह सहित रांची महानगर के सभी नवनि्युक्त पदाधिकारी और 19 मंडल के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

लोग अपने घरों में व्यावसायिक, स्थलों में अवश्य तिरंगा लगायें और लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करें। इसी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने आवास पर पत्नी संग और रांची महानगर के पदाधिकारी के साथ

अपने घर पर तिरंगा लगाया। इस अवसर पर कांके के विधायक समरी लाल, महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू, महामंत्री बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा सहित महानगर के सभी पदाधिकारी और सभी मंडल के अध्यक्ष उपस्थित थे।

# पौधा लगाने से ज्यादा आवश्यकता संरक्षण और संवर्धन की : अभामस

शहीद संकल्प शुक्ला के आवास पर सावन महोत्सव एवं वृक्ष संरक्षण समारोह सह जागरूकता का आयोजन

आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्यों ने एवं पदाधिकारियों ने आज राजधानी में सावन महोत्सव का आयोजन किया। इसके तहत सभी ने उत्साह के साथ इस आयोजन में भागीदारी की वहीं दूसरी ओर पौधरोपण के साथ ही वृक्ष संरक्षण और संवर्धन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं सभी में जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया गया।

सोमवार को राजधानी के बूटी मोड़ में सहित संकल्प शुक्ला के आवास पर आयोजित एक समारोह में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें वृक्षों



के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए कहा गया कि पौधरोपण एक बात है, लेकिन उसका संरक्षण बिल्कुल दूसरी ओर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वृक्षों के बिना न केवल जीवन बल्कि समूची सृष्टि और प्रकृति भी समाप्त हो जायेगी। निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से ऐसे आयोजन

किये जायेंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा आयोजित इस समारोह में सुभा शुक्ला, सतनाम सलूजा, इंदिरा शुक्ला, अनुष्मा प्रसाद, डॉ पुष्पा पांडे कुमकुम गौड़, डॉ राका ठाकुर, नैना तनेजा सहित अनेक पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया।

## चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की

**अनाधिकृत निर्माण को नियमितकरण करने के लिए योजना 2022 को जल्द प्रभावी करने की मांग की**

आजाद सिपाही संवाददाता

**रांची।** चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। इस दौरान राज्य वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को रेगुलराइज करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा अनाधिकृत निर्माण को नियमितकरण करने के लिए योजना 2022 को जल्द प्रभावी करने की मांग की गयी। इस दौरान कहा गया कि विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्य में लगभग 8.5 लाख भवन/मकान टूटने से बचेंगे और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोग लाभांशित होंगे। यह भी सुझाया गया कि शहर के बाहर अवस्थित जो वेयरहाउस और छोटे-छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना लिये गये हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया जाय ताकि वे व्यवसायी भी राज्य के विकास में अपना योगदान

## उत्तराखंड भ्रातृ संघ का सावन मिलन समारोह दीपा अधिकारी और डॉ साक्षी बर्नी सावन क्वीन

दे सकें। मुलाकात के क्रम में चैंबर ने रांची मास्टर प्लान 2037 में संशोधन के लिए नागरिकों द्वारा पूर्व में दिये गये सुझाव पर कार्यवाई करने की आवश्यकता बतायी। कहा गया कि शहरवासियों ने भूमि उपयोग में सुधार के लिए अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत की हैं जिसमें यह बताया गया है कि इन संशोधनों के बिना वे अपनी भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम ने भूमि उपयोग में सुझाये गये सभी बदलावों को नगर विकास विभाग को निर्गत कर दिया है और वर्तमान में यह संचिका विभाग में लॉबित है। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने प्रतिनिधि मंडल के सभी सुझावों पर उचित कार्यवाई का भरोसा दिलाया। यह भी आश्वासित किया कि सभी मामलों में 20 तारीख तक विभागीय अधिकारियों से वातां कर, स्थिति की समीक्षा की जायेगी। प्रतिनिधि मंडल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य महलोत्रा, लैंड रिफॉर्म उप समिति चेयरमैन रमेश साहू समेत अन्य शामिल थे।

## उत्तराखंड भ्रातृ संघ का सावन मिलन समारोह दीपा अधिकारी और डॉ साक्षी बर्नी सावन क्वीन

**आजाद सिपाही संवाददाता**

**रांची।** उत्तराखंड भ्रातृ संघ का तीसरा सावन मिलन समारोह रविवार देर रात संपन्न हुआ। दीपा अधिकारी प्लैटिनम तथा डॉ साक्षी गोल्ड महिला वर्ग में सावन क्वीन बनीं। बच्चों में वीरा और तेजस्वी संयुक्त रूप से सावन क्वीन बनीं। बालक वर्ग में आयुष्मान तिवारी सावन प्रिंस बने। शिवांगी अधिकारी ने सावन प्रिंसेस का खिताब जीता। प्रेम चंद्र निवाल सावन किंग बने, जबकि अजय कुकरेती रनर रहे। राखी मैकिंग में हिमानी भट्ट, शुभ और प्रीषा

## उत्तराखंड भ्रातृ संघ का सावन मिलन समारोह दीपा अधिकारी और डॉ साक्षी बर्नी सावन क्वीन



आजाद सिपाही संवाददाता

नगन्याल प्रथम तीन स्थानों पर रहे मेहंदी में आलोक असवाल विजेता बने। आइपीएस अधिकारी तथा जैप दो की कमांडेंट सरोजिनी लकड़ा तथा दिव्यांग बच्चों के लिए काम करनेवाली अनीता कुमारी ने पुरस्कार विनितर किये तथा प्रतिभांगियों को अंक दिए। डा साक्षी तथा यश पाठक ने एंकरिंग की। पिछले सत्र की सावन क्वीन पुष्पा पाठक ने गोल्ड कटेगरी की क्वीन को ताज पहनाया। कार्यक्रम में संघ की दिवंगत सदस्य डॉ सरिता त्रिपाठी को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी।

## जुमार नदी में डूबे छात्र का शव एनडीआरएफ ने बरामद किया

**रांची (आजाद सिपाही)।** हॉस्टल से भाग कर दोस्तों के साथ घूमने गये छात्र की जुमार नदी में डूब कर मौत हो गयी थी। घटना के दूसरे दिन सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने छात्र का शव बरामद किया है। छात्र सदर थाना क्षेत्र के बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या स्कूल में पढ़ता था। शनिवार देर रात छात्र जुमार नदी डूब गया था। शनिवार को एनडीआरएफ की टीम शव को नहीं तलाश पायी थी रविवार को घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम छात्र के शव को नदी से निकालने के लिए नदी पहुंची थी, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो पाया था। इसके बाद सोमवार को तलाशी के दौरान एनडीआरएफ की टीम को छात्र का शव मिला। छात्र मनन विद्या स्कूल की दसवीं कक्षा का छात्र था। छात्र का नाम पीयूष कुमार था। वह मूल रूप से गया जिले का रहनेवाला है।

## मॉल ऑफ रांची की आज पहली वर्षगांठ

**आजाद सिपाही संवाददाता**

**रांची।** मॉल ऑफ रांची मंगलवार को अपनी पहली वर्षगांठ मनायेगा। पिछले एक वर्ष में, मॉल ऑफ रांची ने अपने विविध खरीदारी, भोजन और मनोरंजन के विकल्पों के लिए एक प्रसिद्ध नाम बना लिया है। इस महत्वपूर्ण मौल के पथर को चिह्नित करने के लिए, मॉल ऑफ रांची प्रबंधन जश्न मनाने के लिए उत्साहित है। यह शाम इवेंट्स और मनोरंजन की योजना के साथ भरी होगी, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित होगा। मॉल ऑफ रांची के महाप्रबंधक सुब्रत सान्याल ने कहा कि हम रांची के लोगों के पिछले एक वर्ष में मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं। अपनी पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के दौरान, हम अपनी खुशी और सफलता को अपने मूल्यवान ग्राहकों और आगंतुकों के साथ साझा करना चाहते हैं।

## मॉल ऑफ रांची की आज पहली वर्षगांठ

**आजाद सिपाही संवाददाता**

**रांची।** मॉल ऑफ रांची मंगलवार को अपनी पहली वर्षगांठ मनायेगा। पिछले एक वर्ष में, मॉल ऑफ रांची ने अपने विविध खरीदारी, भोजन और मनोरंजन के विकल्पों के लिए एक प्रसिद्ध नाम बना लिया है। इस महत्वपूर्ण मौल के पथर को चिह्नित करने के लिए, मॉल ऑफ रांची प्रबंधन जश्न मनाने के लिए उत्साहित है। यह शाम इवेंट्स और मनोरंजन की योजना के साथ भरी होगी, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित होगा। मॉल ऑफ रांची के महाप्रबंधक सुब्रत सान्याल ने कहा कि हम रांची के लोगों के पिछले एक वर्ष में मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं। अपनी पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के दौरान, हम अपनी खुशी और सफलता को अपने मूल्यवान ग्राहकों और आगंतुकों के साथ साझा करना चाहते हैं।

## कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण

लाइव बैंड परफॉर्मेंस: शाम की शुरुआत प्रशंसित बैंड हैडपिकड के लाइव परफॉर्मेंस से होगी, जो अपनी दमदार संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगा। शॉपिंग फेस्टिवल लकी ड्रॉ: चल रहे शॉपिंग फेस्टिवल का समापन एक बहुप्रतीक्षित लकी ड्रॉ के साथ होगा।

**रोमांचक पुरस्कार, जिनमें शामिल हैं:** स्टाकेंड द्वारा प्रायोजित वनप्लस मोबाइल फोंस, आरजी सेलुलर (वनप्लस स्टोर मॉल ऑफ रांची) द्वारा वनप्लस टेलीविजन, डिजाइन हैडवेयर।

**प्रमुख पुरस्कार:** होडा स्कुटी और वाइक।

**ग्राँड प्राइज:** सिंधानिया स्कोडा द्वारा स्कोडा स्लाविया।

**अतिरिक्त पुरस्कार:** जो लोग मुख्य पुरस्कार नहीं जीते, उनके लिए टिकट होल्डर्स के लिए 1,100 और 2,100 के रिडीमेबल कूपन, अगर उनके टिकट के आखिरी तीन या दो अंक मुख्य ड्र कूपन से मैच करते हो।

## मॉल ऑफ रांची की आज पहली वर्षगांठ

**आजाद सिपाही संवाददाता**

**रांची।** मॉल ऑफ रांची मंगलवार को अपनी पहली वर्षगांठ मनायेगा। पिछले एक वर्ष में, मॉल ऑफ रांची ने अपने विविध खरीदारी, भोजन और मनोरंजन के विकल्पों के लिए एक प्रसिद्ध नाम बना लिया है। इस महत्वपूर्ण मौल के पथर को चिह्नित करने के लिए, मॉल ऑफ रांची प्रबंधन जश्न मनाने के लिए उत्साहित है। यह शाम इवेंट्स और मनोरंजन की योजना के साथ भरी होगी, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित होगा। मॉल ऑफ रांची के महाप्रबंधक सुब्रत सान्याल ने कहा कि हम रांची के लोगों के पिछले एक वर्ष में मिले अभूतपूर्व समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं। अपनी पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के दौरान, हम अपनी खुशी और सफलता को अपने मूल्यवान ग्राहकों और आगंतुकों के साथ साझा करना चाहते हैं।

## महत्वापूर्ण खबरें

### झारखंड माइनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर शो को लेकर संजय सेठ को किया आमंत्रित

**रांची (आजाद सिपाही)।** अगामी 20, 21 और 22 सितंबर 2024 को प्रभात तारा मैदान धुवाँ में झारखंड माइनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन लघु उद्योग भारती और ओलंपिया के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस शो के उद्घाटन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ को आमंत्रित किया गया है। सोमवार को लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधि मंडल संजय सेठ से मिल उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में लघु उद्योग भारती झारखंड प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष किजय छपरिया, सचिव प्रकाश हेतमसरिया, सचिव सत्य प्रकाश पांडेय, अजय दार्धीक, महिला विंग की सचिव नीतू सिंह आदि मौजूद थे।

### संत जेवियर्स कॉलेज में वोकेशनल के नये बैच के छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित

**रांची (आजाद सिपाही)।** संत जेवियर्स कॉलेज रांची में सोमवार को स्नातक वोकेशनल कोर्स के नये बैच के छात्रों के लिए फादर सी डिव्रावर सभागार में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉ फादर एन लकड़ा एसजे ने शुरुआत करते हुए आध्यात्मिक और प्रेरक संबोधन से नये विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को सही व्यवहार और मूल्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप प्राचार्य डॉ फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर एसजे ने नये सत्र के विद्यार्थियों को अध्ययन करने की टिप्स दी साथ-साथ महाविद्यालय की मिशन विजन और कोर वैल्यू से अलगत कराया गया। उप प्राचार्य (इवनिंग) डॉ फादर अजय अरुण मिंज एसजे ने कैरियर नियोजन, उद्योग के अवसरों और कॉलेज में समय का अधिकतम लाभ उठाने के अन्य तरीकों के बारे में जानकारी शामिल है। मौके पर परीक्षा नियंत्रक प्रो बीके सिन्हा, डॉ फादर फ्लोरेंस पूर्ति एसजे, बर्सर फादर रवि हेमंत कुजूर एसजे समेत कई लोग उपस्थित थे।

### बरनवाल सेवा ट्रस्ट का सावन मिलन समारोह

**रांची (आजाद सिपाही)।** स्वयंसेवक वाटिका, कोकर में बरनवाल सेवा ट्रस्ट, रांची द्वारा आनंदरूपक पारिवारिक सावन मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्त्री, पुरुष और युवाएं के लिए कई खेल आयोजित किए गये। सावन माह के उपलक्ष्य में कजरी, गीत-संगीत और नृत्य ने सबका मन मोह लिया। सभी विजेताओं, सावन क्वीन और सावन किंग को पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ऋचा सचिता ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजक में डरा बरनवाल, कुमारी संध्या, मीरा बरनवाल, सोमा बरनवाल, स्नेहा गुप्ता, रिंतु रानी, रीमा मोदी, ममता कुमारी, मोनी बरनवाल और अन्य कई सदस्यों ने अपना योगदान दिया।

### भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के वर्तमान प्रदेश कमेटी पर पूर्ण विचार करे भाजपा

**रांची (आजाद सिपाही)।** भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के सांसद व अनु जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रभारी डॉ भोला सिंह से मुलाकात की। भाजपा अनु जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशन दास द्वारा जारी सूची का विरोध किया। मांग किया कि वर्तमान सूची में जाति संतुलन नहीं बनाया गया है। एक दो जाति को ही प्राथमिकता दिया गया है। साथ ही एक एक व्यक्ति को दो दो पद दिया गया है। जिससे समाज के कई वर्गों में कमेटी को लेकर नाराजगी है। मुलाकात व विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि यदि एक सप्ताह में निर्णय नहीं लिया गया या बिचार नहीं किया गया तो कई समाज के लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। लोगों ने कहा कि पार्टी के लोग विषय पर संज्ञान लें। राष्ट्रीय प्रभारी से मुलाकात करने में उपेंद्र रजक, युवराज पासवान, निरुज नायक, शंकर रजक, राकेश राम, गोविंदा वाल्मीकि, कमल किशोर राम, सुविल पासवान, प्रमित पासवान, ब्रज किशोर राम सहित अन्य शामिल थे। उक्त जानकारी गोविंदा वाल्मीकि ने दी।



## बेहतर हुए रिश्ते

विदेश मंत्री एस जयशंकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव यात्रा के दौरान वहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु का जैसा दोस्ताना रवैया दिखा, उसे भावनात्मक राजनीति के तर्कों पर कूटनीति की ठोस हकीकतों की जीत के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। पिछले करीब एक साल की अवधि में दोनों देशों के रिश्तों ने तो हिचकोले खाये ही, एक देश के रूप में भी मालदीव कई कड़वे अनुभवों से गुजरा। इस प्रकरण की शुरुआत पिछले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से मानी जा सकती है, जिसमें एक प्रत्याशी के तौर पर मुइज्जु ने भारत विरोधी भावनाओं पर दांव लगाया था। वह बार-बार सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प करते देखे गये कि सत्ता में पहुंचते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से विदा कर देंगे। हालांकि सबको पता था कि भारतीय सैनिकों की वहां मौजूदगी सांकेतिक ही थी। चुनावों के दौरान ही यह साफ हो गया था कि मुइज्जु भारत के साथ रिश्तों में आ रही संभावित दूरी को भरपाई चीन से करीबी रिश्तों के रूप में करना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स तब भी इस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि भू-राजनीति की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि मालदीव में जो भूमिका भारत निभा सकता है, वह चीन निभाने लगे। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद मुइज्जु के बयानों में हलकी सी नरमी जरूर दिखी, लेकिन नीतियों की दिशा बदलने का प्रयास भी जारी रहा। चुनावों के दौरान बने माहौल का असर ही कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के एकाधिक मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां कीं, जिन्हसे दोनों देशों के रिश्तों में धीरे-धीरे बनता तनाव अचानक बेकाबू हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मालदीव की नयी सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड चॉक की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42% की कटौती दर्ज की गयी। ध्यान रहे, मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 30% है। इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटक दिखायी देने लगा। मुइज्जु सरकार इनकी अनेक नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज्जु सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लाते देख रहे हैं।

भारत के सहयोग से चलनेवाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटक दिखायी देने लगा। मुइज्जु सरकार इनकी अनेक नहीं कर सकती थी।

रिश्तों में धीरे-धीरे बनता तनाव अचानक बेकाबू हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मालदीव की नयी सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड चॉक की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42% की कटौती दर्ज की गयी। ध्यान रहे, मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 30% है। इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटक दिखायी देने लगा। मुइज्जु सरकार इनकी अनेक नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज्जु सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लाते देख रहे हैं।

## अभिमत

## आजाद सिपाही

पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आवास क्षेत्र का बकाया ऋण लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। मार्च 2024 के लिए बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित) पर बकाया ऋण 27,22,720 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 में 19,88,532 करोड़ रुपये और मार्च 2022 में 17,26,697 करोड़ रुपये। समग्र आवास वित्त के साथ जारी रहने की प्रवृत्ति की तीव्र मांग के समर्थन से निकट-से-मध्यम अवधि में सालाना 12-14 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

## भारतीयों में घर के स्वामित्व के प्रति बढ़ती भूख

## एससी डल

आवास क्षेत्र के ऋणों में वृद्धि न केवल एक मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच गृह स्वामित्व के लिए बढ़ती भूख को भी दर्शाती है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आवास क्षेत्र का बकाया ऋण लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। मार्च 2024 के लिए बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित) पर बकाया ऋण 27,22,720 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 में 19,88,532 करोड़ रुपये और मार्च 2022 में 17,26,697 करोड़ रुपये। समग्र आवास वित्त के साथ जारी रहने की प्रवृत्ति की तीव्र मांग के समर्थन से निकट-से-मध्यम अवधि में सालाना 12-14 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

तेजी से शहरीकरण और आय का बढ़ता स्तर विलासिता में तेजी ला रहा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और आय के बढ़ते स्तर से प्रेरित होकर, महानगरीय परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले आवास और बेहतर जीवनशैली की मांग में वृद्धि हुई है। नाइट फ्रैंक की एक नयी रिपोर्ट जिसका शीर्षक इंडिया रियल एस्टेट-आवासीय और कार्यालय (जनवरी- जून 2024) है, से पता चला है कि 2024 की पहली छमाही (H1 2024) में भारत के शीर्ष 8 शहरों में आवासीय इकाई की बिक्री में महत्वपूर्ण उछाल आया है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में बिक्री में 11 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई, इस दौरान कुल 173,241 इकाइयां बेची गयीं। यह अवधि,

भारत में भविष्य का होम लोन तेजी से डिजिटल हो रहा है।



भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र दूसरा सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। यह भी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों में अधिक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवेश आयेगा। एनआरआई के लिए बंगलुरु सबसे पसंदीदा संपत्ति निवेश गंतव्य होने की उम्मीद थी, इसके बाद अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, गोवा, दिल्ली और देहरादून थे।

गृहस्वामित्व के लिए एक मजबूत भूख को दर्शाती है।

प्रवृत्ति के अनुसार-प्रीमियम संपत्तियों की ओर खरीदारों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया। 1 करोड़ रुपये (10 मिलियन) और उससे अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी, जो 2024 की पहली छमाही में कुल बिक्री का 41 प्रतिशत थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में आवासीय रियल एस्टेट बाजार 280,000-290,000 इकाइयों की अनुमानित आबादी के साथ नये लांच की मजबूत आमद की उम्मीद कर रहा है। इसने 2024 के लिए एक अच्छा रास्ता तय किया है, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र न केवल बढ़ रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में और अधिक विकास का वादा भी कर रहा है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जबकि

पिछले दशक में 2023 सबसे अधिक नयी परियोजना घोषणाओं वाला वर्ष था। 2024 की पहली तिमाही यह इंगित करती है कि डिवैल्पर्स रणनीतिक रूप से घर खरीदारों की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे हैं, जो एक उन्नत जीवन शैली अनुभव की तलाश कर रहे हैं। पूर्व आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत में 2025 तक रियल एस्टेट बाजार का भारत की जीडीपी में लगभग 15 प्रतिशत योगदान होने और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार के दबाव के कारण किरायावृद्धि आवास खंड में तेजी देखी गयी है।

पिछले 2 वर्षों में कोविड के बाद घर खरीदने की कुछ दबी हुई मांग भी थी, जो यहां परिलक्षित हो रही है। भारतीय रियल एस्टेट बाजार स्थानीय मांग को

पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक निवेश अवसर के रूप में भी देखा जाता है। एनआरआई, विशेष रूप से, न केवल निवेशकों के रूप में, बल्कि अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने के एक तरीके के रूप में बाजार में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 तक, बाजार में कुल निवेश में एनआरआई की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अब लगभग 15 प्रतिशत हो गया है और वर्ष 2025 के अंत तक 20 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह बाजार की वैश्विक अपील और एनआरआई समुदाय से प्राप्त विश्वास का एक स्पष्ट संकेत है। समृद्ध रहने की जगहों, अत्याधुनिक सुविधाओं और प्रमुख स्थानों के आकर्षण के कारण उच्चस्तरीय आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ रही है।


कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं, लेकिन मजबूत स्थिति को देखते हुए बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, निवेशकों को अभी भी परीक्षण करना चाहिए और सट्टा निवेश के बारे में सतर्क रहना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र को नए रियल्टी कानून रेरा, जीएसटी और नोटबंदी के कारण पैदा हुए व्यवधानों के अलावा क्षेत्र में विश्वास की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि कई डिवैल्पर्स ने ग्राहकों से पैसे लेने के बाद परियोजनाएं वितरित नहीं कीं।

भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र दूसरा सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। यह भी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में अल्पावधि और दीर्घकालिक दोनों में अधिक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवेश आयेगा। एनआरआई के लिए बंगलुरु सबसे पसंदीदा संपत्ति निवेश गंतव्य होने की उम्मीद थी, इसके बाद अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, गोवा, दिल्ली और देहरादून थे। शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। देश की शहरी आबादी में वृद्धि को पूरा करने के लिए 2030 तक किरायावृद्धि आवास की अतिरिक्त 25 मिलियन इकाइयों की आवश्यकता है।

भारत में भविष्य का होम लोन तेजी से डिजिटल हो रहा है।। उधारकर्ता अब होम लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप से अपलोड करें और वास्तविक समय में उनके आवेदन की प्रगति का पता लगायें। यह भी देखा गया है कि आवास ऋण पर दिये जाने वाले किसी भी अन्य प्रकार के ऋण की तुलना में ब्याज दर काफी कम होती है। वित्तीय परेशानी से बाहर निकलने के लिए, उधारकर्ता व्यक्तिगत ऋण की तुलना में सस्ते ब्याज पर वर्तमान गृह ऋण को टॉप अप करने में सक्षम हो सकता है।

## देश-विदेश की खबरें

## जुलाई में खुदरा महंगाई कम होकर 3.54% पहुंची



पांच साल बाद चार प्रतिशत से नीचे पहुंचा आंकड़ा

आजाज सिपाही संवाददाता

नयी दिल्ली। जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर घटकर 3.54 प्रतिशत हो गई। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी सामने आयी। खुदरा मुद्रास्फीति की दर लगभग पांच वर्षों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4 प्रतिशत से नीचे आ गई है। अगस्त 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.28% रही थी।

खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण जून में पांच महीने में पहली बार दर में तेजी देखी गई थी और यह सालाना आधार पर बढ़कर

5.08 प्रतिशत हो गई थी। जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 7.44 प्रतिशत थी। 36 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में यह आंकड़ा तेजी से घटकर 3.65 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया गया था।

## जून में औद्योगिक उत्पादन 4.2% बढ़ा

आंकड़ों के अनुसार जून महीने में औद्योगिक उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़ा। एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। अप्रैल-जून तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 5.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसमें 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

## सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे : हिंडनबर्ग

- साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश
- अडाणी के माई ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ायी

आजाद सिपाही संवाददाता

मुंबई। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट

पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की हैं, जिससे कई नये सवाल खड़े हो गए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा- बुच के जवाब से ये पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमुडा/मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडाणी के भाई विनोद

अडाणी करते थे। आरोप है कि विनोद अडाणी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे।

हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये भी कहा कि मार्केट रेगुलेटर एड्जको अडाणी मामले से संबंधित इन्हीं ऑफशोर फंडों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें माधवी

पुरी बुच की ओर से निवेश किया गया था। यह स्पष्ट रूप से हिटों के टकराव का एक बड़ा मामला है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने शनिवार को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है।

## हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भाजपा के रविशंकर प्रसाद का पलटवार यह आर्थिक अराजकता लाने की साजिश

आजाद सिपाही संवाददाता

नयी दिल्ली। हाल ही में जारी की गयी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भाजपा ने सवाल उठाये हैं। सोमवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह भारत के लोगों की ओर से तुकराये जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूलकिट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई, तो रविवार को हंगामा हुआ। इसके बाद सोमवार को पूंजी बाजार अस्थिर हो गया। भारत शेयरों के मामले में सुरक्षित, स्थिर और आशावादी बाजार है। इस बाजार की निगरानी करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा



कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद जब सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया, तो उसने अपना जवाब नहीं दिया, बल्कि बेवुनियाद हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हिंडनबर्ग में किसका निवेश है? एक सज्जन जर्ज सौरास जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ प्रोग्रेण्डा चलाते हैं। ये उसके मुख्य निवेशक हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ

नफरत फैलाते हुए कांग्रेस भारत के खिलाफ नफरत पैदा कर ली है। अगर भारत का शेयर बाजार परेशान हो जाता है तो छोटे निवेशक परेशान होंगे। मगर कांग्रेस को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक है टूलकिट पॉलिटिक्स और दूसरी है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में चिट मिलने पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस चिट पॉलिटिक्स कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मिलने वाली चिटों का क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि छोटे निवेशकों के पूंजी निवेश को रोकना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो।

## शेयर बाजार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को दिखाया ठेंगा

मुंबई (आजाद सिपाही)। बाजार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शुरुआती दौर में झटका खाने के बाद उसे ठेंगा दिखा दिया है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण बाजार में एक बार फिर बड़ा नुकसान हो सकता है, अडानी ग्रुप सहित कुछ बड़ी कंपनियों को भी रिपोर्ट के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ नुकसान होने के बाद बाजार तेजी से संभला और अब यह बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ता दिखायी दिया।

## केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैक्ले के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक भारत और न्यूजीलैंड बागवानी और कृषि साझेदारी को और मजबूत करेंगे

आजाद सिपाही संवाददाता

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और न्यूजीलैंड के कृषि, वानिकी, व्यापार और विदेश मामलों के एगोसिएट मंत्री टॉड मैक्ले के बीच आज कृषि भवन, नयी दिल्ली में उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी हितों

के प्रमुख क्षेत्रों व सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गयी। यह चर्चा दोनों देशों की कृषि प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी साझा करने और बागवानी पर प्रस्तावित मेमोरेण्डम ऑफ कॉपरेशन (एमओसी) सहित साझेदारी के लिए नये रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। मंत्रियों ने कृषि साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी



प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

ने भारत के साथ संबंध सुदृढ़ करने में न्यूजीलैंड के सक्रिय प्रयासों की सराहना की व इस संबंध के लिए न्यूजीलैंड सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। साथ ही न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान और

दोनों देशों के बीच बढ़ते शैक्षिक आदान-प्रदान का उल्लेख किया। बैठक के मुख्य निष्कर्षों में व्यापार और बाजार पहुंच में सकारात्मक विकास शामिल है। भारतीय अनार के आयात और आम के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए न्यूजीलैंड के समर्थन को गर्मजोशी से स्वीकार किया गया। मंत्री श्री चौहान ने लखनऊ और दिल्ली में नए ऑडिट

की गयी वीएचटी सुविधाओं को शीघ्र अनुमोदन मिलने की भी उम्मीद जतायी, जिससे न्यूजीलैंड को भारतीय आमों का निर्यात और बढ़ेगा। इसके अलावा, न्यूजीलैंड के मंत्री श्री मैक्ले ने न्यूजीलैंड से भारत को पहन लॉग निर्यात की हाल ही में पुनः शुरुआत के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उन्हें पिछली चुनौतियों से उबरने में मदद मिली।

## टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी आइआइटी मद्रास टॉप पर

धर्मोद प्रधान ने बहुपक्षीय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के 9वें संस्करण की घोषणा की

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बहुपक्षीय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के 9वें संस्करण की घोषणा कर दी है। हर साल जारी की जाने वाली एनआइआरएफ रैंकिंग विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करती है। एनआइआरएफ रैंकिंग 2024 में आइआइटी मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी) बंगलुरु ने एनआइआरएफ रैंकिंग 2024 की शोध श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नयी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में 13 श्रेणियों की रैंकिंग जारी की गयी।

## इंजीनियरिंग श्रेणी के तहत शीर्ष संस्थान

आइआइटी मद्रास, आइआइटी दिल्ली, आइआइटी बॉम्बे, इट कानपुर, आइआइटी खड़गपुर, आइआइटी रुड़की, आइआइटी गुवाहाटी, आइआइटी हैदराबाद, एनआइटी तिरुचिरापल्ली, आइआइटी-बीएचयू वाराणसी। आइआइएससी बंगलुरु सर्वश्रेष्ठ तीय विश्वविद्यालय : इस साल मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। वहीं, हिंदू कॉलेज ने इस साल कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइआइएम अहमदाबाद में मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किया है। आइआइएससी बंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय, आइआइटी मद्रास को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान चुना गया। शीर्ष प्रबंधन संस्थान : आइआइएम अहमदाबाद,

बंगलोर, कोझिकोड, दिल्ली, कलकत्ता, आइआइएम मुंबई, आइआइएम लखनऊ, आइआइएम इंदौर, एक्सएलआरआइ, जमशेदपुर, आइआइटी बॉम्बे।

विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष संस्थान : आइआइएससी, बंगलुरु, जेएनयू, नयी दिल्ली, जेएमआइ, नयी दिल्ली, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, बीएचयू, वाराणसी, दिल्ली विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, एएमयू, अलीगढ़, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, वीआइटी, चेन्नई। समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 संस्थान : आइआइटी मद्रास, आइआइएससी बंगलुरु, आइआइटी बॉम्बे, आइआइटी दिल्ली, इट कानपुर, आइआइटी खड़गपुर, एम्स, नयी दिल्ली, आइआइटी रुड़की, आइआइटी गुवाहाटी, जेएनयू, नयी दिल्ली।

भारत के शीर्ष कॉलेज : हिंदू कॉलेज, दिल्ली, मिरांडा हाउस, दिल्ली, सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली, राम कृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी कॉलेज, कोलकाता, आत्मा राम सानान धर्म कॉलेज, दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता, पीएसजीआर कृष्णमल्ल महिला कॉलेज, कोयंबटूर, लोयोला कॉलेज, चेन्नई, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, दिल्ली।

इस साल के शीर्ष लॉ संस्थान : नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे।



## बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन



गढ़वा (आजाद सिपाही)। सोमवार को बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित गुरुपद संभव राम जी ऑडिटोरियम में एंटी रैगिंग पर अभिविन्यास कार्यक्रम और नशा मुक्त भारत अभियान का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ) एमके सिंह, कुलसचिव डॉ ललन कुमार, परीक्षा नियंत्रक एनके मिश्रा तथा विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य जिसमें डॉ० उमाशंकर मिश्रा, डॉ पीडी तिवारी, डॉ सुनीता गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में विवि के कुलपति प्रोफेसर डॉ एमके सिंह ने कहा कि रैगिंग एक अभिशाप है और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों में डॉ सुनीता गुप्ता, डॉ पीडी तिवारी, डॉ उमाशंकर मिश्रा, डॉपंकज कुमार, डॉ मनीष दुबे, दिव्या तिरु आदि तथा वानचल एडुकेशनल एंड वेलफर ट्रस्ट के पदाधिकारियों में सुभाष कुमार, राकेश, केसरी एसके ओझा, हिमांशु, संतोष ठाकुर कुमार आदि तथा सभी महाविद्यालयों के प्राध्यापक और छात्र-छात्राएँ और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे।

## मेदिनीनगर की प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने हर घर तिरंगा वितरण की शुरुआत की



भंडरिया (आजाद सिपाही)। मेदिनी नगर निगम की प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने सोमवार को भंडरिया प्रखंड मुख्यालय के भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ दुकानदार समेत हर घर तिरंगा वितरण का कार्यक्रम गाजे बाजे के साथ किया। मेदिनीनगर प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर हम भाजपा के सिपाही एक-एक घर तिरंगा वितरण का कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे देश की शान तिरंगा हर घर में लहरा सके किसी को लेकर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सदस्य विपरा खजुरी भंडरिया गांव के घरों में तिरंगा झंडा का वितरण का कार्य कर रहे हैं ताकि लोग घर घर तिरंगा लगा सकें। साथ ही भूइहर समाज के लोगों से मिलते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर सचिव प्रतिनिधि रूप निरंजन सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनिल केसरी राजेश कुमार वर्मा, निरंजन जायसवाल, प्रधान राजेंद्र माझी आदि समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।

## विद्या मंदिर के बच्चों ने राजा पहाड़ी पर किया सेवा कार्य



श्री बंशीधर नगर (आजाद सिपाही)। सरस्वती विद्या मंदिर श्री बंशीधर नगर के कक्षा नवम और दशम के भैया द्वारा राजा पहाड़ी पर सेवा कार्य किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रविकान्त पाठक ने बताया कि इस तरह के कार्य द्वारा बच्चों में सेवा का भाव पैदा होता है। बच्चों द्वारा मंदिर परिसर में गिरे पड़े प्लास्टिक की थैली घास आदि की सफाई की। इस कार्य में विद्यालय के आचार्य सुधीर प्रसाद श्रीवास्तव, नीरुज सिंह और अविनाश कुमार की सहभागिता रही।

## आक्रोशित जल सहिया पेयजल और स्वच्छता विभाग कार्यालय पहुंची, स्पष्टीकरण का जवाब दिया



गढ़वा (आजाद सिपाही)। पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा जिले भर के जल सहिया से पूछे गये विभागीय स्पष्टीकरण पर आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में जल सहिया पेयजल और स्वच्छता विभाग कार्यालय पर पहुंचे तथा स्पष्टीकरण का जवाब सामूहिक तौर पर लिखित रूप से दिया। जल सहिया संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार सिंह से मुलाकात कर विषय विंदु पर वार्ता किया। जल सहिया की बातों को सुनकर सकारात्मक आशवासन कार्यपालक अभियंता ने दिया और कहा कि सभी जल सहिया जागरूक होकर अपना अपना कर्तव्य अनुसार कार्य करें विभाग का पूरा सहयोग मिलेगा। मौके पर जल सहिया संघर्ष समिति के संरक्षक सुरज गुप्ता ने कहा कि जल सहिया केंद्र और राज्य के योजनाओं को जमीन पर उतरने में जी जान लगाती है उसके बदले उन्हें वेतनमान मिलना चाहिए था, परंतु इनके साथ अन्याय हो रहा है। मौके पर जिला अध्यक्ष मालती देवी, महासचिव रेखा देवी, उपाध्यक्ष संयुक्त देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, अनीता देवी, कनकलता, मधु, अर्पणा, अमृता, सविता, संजू, रीना देवी सहित बड़ी संख्या में जल सहिया उपस्थित थीं।

## सावन की चौथी सोमवारी पर शिवालयों में लगी रही भक्तों की भीड़

मेराल (आजाद सिपाही)। पवित्र सावन महीने के चौथी सोमवार पर प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में महादेव के भक्तों की भीड़ दिन भर देखी गयी। वहीं मेराल के प्रसिद्ध व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद के यहां रूद्राक्ष अभिषेक किया गया, जिसमें उनकी पत्नी पुत्र राजू प्रसाद सहित परिवार के कई सदस्य शामिल थे। इसी तरह सभी मंदिरों में 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोलो' के गगनभेदी जयकारों से वातावरण गुंजाता रहा, जो हर भक्त के दिल में शिवभक्ति की भावना को और बढ़ा रहा था।

## रमना में तिरंगा फहराने को लेकर समय का निर्धारण

रमना (आजाद सिपाही)। रमना प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय महापर्व को लेकर बीडीओ वासुदेव राय के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड के सरकारी कार्यालय व संस्थानों में झंडाटोलन को लेकर समय निर्धारित किया गया। जिसमें प्रखंड कार्यालय पर 8:15 बजे, थाना परिसर रमना में 8:45 बजे, बीआरसी कार्यालय में 9 बजे, मध्य विद्यालय सिलीदाग एक 9:20 बजे, बालिका उच्च विद्यालय रमना 9:30 बजे, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय रमना 9:50 बजे, राजकीय कृत पत्स टु उच्च विद्यालय रमना 10 बजे, वन परिसर रमना 10:20 बजे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 10:30 बजे। इस अवसर पर प्रमुख करुणा सोनी, थाना प्रभारी असफक आलम, उप प्रमुख खदीजा बीबी, पंचायती राज प्रखंड समन्वयक विक्रान्त कुमार, रूपेश कुमार, विधायक प्रतिनिधि रूपनारायण यादव, सांसद प्रतिनिधि प्रभात कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।

# साढ़े चार वर्षों में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है गढ़वा ने : मंत्री मिथिलेश

मंत्री ने विभिन्न गांवों में जनसंवाद कर सुनी ग्रामीणों की समस्या, किया निदान

### आजाद सिपाही संवाददाता

गढ़वा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को गढ़वा प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंवाद आयोजित कर ग्रामीणों की समस्या सुनी। मंत्री ने मौके पर ही कई समस्याओं का निदान किया। जबकि शेष समस्याओं का निदान यथा शीघ्र करने की बात कही। इस दौरान मंत्री गढ़वा प्रखंड अंतर्गत पिपरा पंचायत के बरवा टोला में शब्बीर आलम खां और राजीव रऊफ के घर के समीप, ग्राम पिपरा में मद्रसा के समीप, बना मोड़ के समीप, लापो में बुधन खां



के घर के समीप, ग्राम बायें में शिव मॉदर के समीप, गांगी खुर्द बर पेड़ के समीप, गांगी कला में देवी धाम के समीप, गरनाहा में कविता देवी के घर के समीप आयोजित जन संवाद में ग्रामीणों से मिले।

मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि झारखंड राज्य बनने के बाद से पहली बार हेमंत सोरेन के हाजी रऊफ के घर के समीप, ग्राम पिपरा में मद्रसा के समीप, बना मोड़ के समीप, लापो में बुधन खां

इतिहास में जो विकास कार्य नहीं हो सका था, वह अब हो रहा है। काफी विषम परिस्थितियों के बावजूद पिछले साढ़े चार वर्षों में गढ़वा में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा की जनता ने पूर्व में किसी को 17 साल, किसी को 10 साल मौका दिया। लेकिन सभी ने अपने-अपने तरीके से सिर्फ धोखा ही दिया। लोग सिर्फ चुनाव के समय आते थे और जैसे-तैसे चुनाव जीत कर गायब हो जाते थे।

## प्लस टू उच्च विद्यालय कांडी की पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका का मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीइइओ और बीडीओ ने विद्यालय पहुंच की जांच

### आजाद सिपाही संवाददाता

कांडी। प्रखंड के राजकीय कृत जमा दो उच्च विद्यालय कांडी के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापिका बिद्यानी बखला को एसबी टीम के द्वारा जेल भेजे जाने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग किया गया था। जिसे लेकर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी केसर राजा, बीईईओ रंभा चौबे, बीडीओ राकेश सहाय विद्यालय पहुंच कर इस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच किया। जिसमें विद्यालय में उपस्थित शिक्षक अभिभावक स्थानीय जन प्रतिनिधि से पूछताछ किया गया। वहीं विद्यालयकर्मों और बच्चों के



अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने एक स्वर में कहा कि विद्यालय में शिक्षकों के बीच गुटबाजी के कारण विद्यालय में पठन-पाठन करने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित हो रहा है। लोगों ने मांग किया कि विद्यालय के शिक्षक अरविंद कुमार मोहम्मद शमी, धर्मेन्द्र रजक, दिनेश यादव के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए इस विद्यालय से स्थानांतरण कराये

जाने की मांग किया, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लोगों को आशवासन दिया कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही किया जा रहा है। मौके पर प्रखंड प्रमुख सतेंद्र पांडे, विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह, युवा नेता शशांक शेखर, कांडी मुखिया विजय राय, जिला परिषद प्रतिनिधि दिनेश कुमार, कांडी बीडीओ प्रतिनिधि अनूप कुमार, विनोद चंद्रवंशी के आलावे अन्य कई लोग मौजूद थे।

## गिरिनाथ सिंह के सामने मेराल दक्षिणी मंडल के तीनों विंग के पदाधिकारियों की हुई घोषणा

पिंकी कुमारी बनी महिला मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तथा पूर्व मुखिया दुखन चौधरी बने दक्षिणी मंडल अध्यक्ष

### आजाद सिपाही संवाददाता

मेराल। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के बसस्टैंड स्थित प्रखंड कार्यालय में सोमवार को दक्षिणी मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मंडल अध्यक्ष सहित मंडल के सभी 9 पंचायत अध्यक्षों की घोषणा की गयी। श्री सिंह ने कहा कि विगत 15 वर्षों में पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में लूट-खसोट तथा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। पूर्व तथा वर्तमान विधायक सह मंत्री द्वारा भोली



भाली जनता को बरगला कर अपनी झोली भरी गयी। जल, जंगल तथा जमीन तथा बालू जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया गया है। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों की घोषणा की गयी, जिसमें हासनादग के पूर्व मुखिया दुखन चौधरी को दक्षिणी मंडल अध्यक्ष तथा कुर्बान अंसारी को सचिव और पिंकी कुमारी

महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनायी गयी। इसके अलावा मंडल के 9 पंचायत अध्यक्षों की भी घोषणा की गयी। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता, अवध किशोर सिंह, सुरेश केसरी, लाल बिहारी चौधरी, बाबुल सिंह, मकसूद अंसारी, अमित सिंह, महेंद्र रवि, ललनी यादव, हरिवंश राम, फूलमानी देवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

## जिले में घर-घर जाकर होगी कुष्ठ मरीजों की खोज, बनाये गये 1408 खोजी दल

उपायुक्त ने की कुष्ठ रोगी खोज अभियान अंतर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक

### आजाद सिपाही संवाददाता

गढ़वा। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2024 अंतर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में संपन्न की गयी। जिले में 28 अगस्त से 13 सितंबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान का संचालन किया जायेगा, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों के संपूर्ण आबादी का शत प्रतिशत कुष्ठ रोग से संबंधित शारीरिक जांच किया जायेगा। इसके लिए पूरे जिले में 1408 खोजी दल बनाये गये हैं।



बहुत ही धीरे फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, जिसका समय से इलाज न करने पर शरीर में विकलांगता की समस्या आ जाती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के लगभग 1684520 लोगों की कुष्ठ रोग से संबंधित स्क्रीनिंग के लिए 1408 खोजी दल का गठन किया गया है, जो अपने-अपने आवंटित क्षेत्र के सभी घरों में जाकर रोगियों को चिन्हित करते हुए कुष्ठ रोग और इसके उन्मूलन का संदेश देंगे।

## जिले में घर-घर जाकर होगी कुष्ठ मरीजों की खोज, बनाये गये 1408 खोजी दल

उपायुक्त ने की कुष्ठ रोगी खोज अभियान अंतर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक

### आजाद सिपाही संवाददाता

गढ़वा। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2024 अंतर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में संपन्न की गयी। जिले में 28 अगस्त से 13 सितंबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान का संचालन किया जायेगा, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों के संपूर्ण आबादी का शत प्रतिशत कुष्ठ रोग से संबंधित शारीरिक जांच किया जायेगा। इसके लिए पूरे जिले में 1408 खोजी दल बनाये गये हैं।

इन्हें लोगों की देन है कि गढ़वा की स्थिति काफी बदतर बनी हुई थी। मंत्री ने कहा कि आप सभी ने वर्ष 2019 में मुझे आशीर्वाद देकर अपना सेवक चुना। उसके बाद से लगातार दिन-रात एक करके मैं गढ़वा के विकास में लगा हुआ हूँ। तब आज गढ़वा के कोने-कोने में विकास की किरण दिखायी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जनता का हितैसी है और कौन जनता के साथ धोखेबाजी करता है। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, हुसैन अली, संजय कांस्यकार, सलीम जाफर, दिलीप गुप्ता, अंकित पांडेय, अंबर खां, राजेंद्र पांडेय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

## करंट लगने से मुबारक की मौत

भवनाथपुर (आजाद सिपाही)। थाना क्षेत्र के अरसली उत्तरी निवासी मुबारक अंसारी 50 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गयी। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मुबारक अंसारी घर में पंखा चालू कर रहे थे, तभी पंखा में करंट आने से मुबारक अंसारी घायल हो गया। परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर इलाज के लिए लाया गया। जहां पर इयूटी पर तैनात डॉक्टर अनीत विश्वास ने मृत घोषित कर दिया।

## गढ़वा में नव निर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन

गढ़वा (आजाद सिपाही)। गढ़वा के पिंडरा गांव में सोमवार को नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन धार्मिक अनुष्ठान के बीच पूरे विधि विधान से हुआ। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉ ईश्वर सागर चंद्रवंशी और गढ़वा जिला अध्यक्ष ठाकुर महतो ने संयुक्त से नारियल फोड़ कर किया। डॉ ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने कहा कि वातवरण को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिये पोथरोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से भी अपने घर के आस पास व सार्वजनिक स्थलों पर एक-एक पौधा लगाने की अपील की। मौके पर राम लाल दुबे, शशि रंजन दुबे, पप्पू पांडेय, संतोष चौबे, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रूप सिंह, सुनील चौधरी, असलम, अनिल यादव सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।



## हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया



गढ़वा (आजाद सिपाही)। स्थानीय सूत्र पांडेय डिग्री कॉलेज परिसर में सोमवार को महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर निकलेश चौबे की उपस्थिति में कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर कमलेश सिन्हा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर महाविद्यालय के एनएसएस और छात्र-छात्राओं द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर लोगों से स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गयी। उपस्थित छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. सिन्हा ने बताया कि एनएसएस के निर्देशानुसार 9 से 15 अगस्त तक यह कार्यक्रम आयोजित है जिसके तहत सोमवार से यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर प्रो. दिवाकर चतुर्वेदी उर्फ शर्मा सर, प्रो. परवेज आलम, प्रो. उमेश सहाय, प्रो. किरण कुमारी, प्रो. रबिता शुक्ला, प्रो. शबनम, प्रो. प्रमिला समेत छात्र छात्राएँ उपस्थित थे।

## विष्णु सिंह अपने घर से लापता, मामला दर्ज

भवनाथपुर (आजाद सिपाही)। थाना क्षेत्र के देकुलिया टोला निवासी संजय सिंह के 16 वर्षीय पुत्र विष्णु सिंह अपने घर से पिछले आठ दिनों से लापता है। जानकारी के अनुसार बीते 4 अगस्त के अहले सुबह पांच बजे जब उसकी दादी उसे उठाने के लिए घर के अंदर गयी तो वह अपने बेड पर नहीं था, जब वह दर रात तक घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों द्वारा आस पड़ोस के साथ रिश्तेदारी में भी विष्णु के बारे में काफी खोजबीन किये, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया। थक हार कर उसके पिता ने स्थानीय थाने में अपने पुत्र की गुमशुदगी की सनहा दर्ज करायी है।



लापता युवक विष्णु सिंह

## उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग (जिला योजना)

e-Mail:- dphazaribagh@gmail.com

### अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)

विधायक मद अन्तर्गत बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य सुविधा हेतु दो अर्द्ध एम्बुलेंस क्रय हेतु विभिन्न शर्तों के साथ अति अल्पकालीन निविदा (VERY SHORT TERM TENDER) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान/ फर्म दिनांक 20.08.2024 के अपराह्न 12:30 बजे तक शर्तों के अनुरूप अपना मुहरबंद निविदा एवं विस्तृत विवरणी जिला योजना कार्यालय, हजारीबाग, समाहरणालय भवन, द्वितीय तल्ल में जमा किया जाना है एवं दिनांक 20.08.2024 के अपराह्न 02:30 बजे प्राप्त निविदा को समक्ष खोला जायेगा। निघारित तिथि एवं समय के पश्चात् जमा किये जाने वाले निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा के नियम एवं शर्तें, संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की विवरणी आदि समाहरणालय, हजारीबाग के वेबसाइट <https://www.hazaribag.nic.in> पर देखा जा सकता है।

PR 332594 (Planning and Development) 24-25 (D) जिला योजना पदाधिकारी हजारीबाग।

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

### मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

### अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या – 06/2024-25/RWD/GARHWA दिनांक – 12.08.2024

1. कार्य का विवरण :-

क्र०	प्रखण्ड	आईडेंटिफिकेशन संख्या/ पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि		कार्य समाप्ति की अवधि
				अंक में (लाख में)	अक्षर में	
1	रमकण्ठा	RWD/GARHWA/16/2024-25	चोरवा सेमर से उदयपुर पंचायत भवन तक पथ निर्माण कार्य। (6.300 कि०मी०)	840.519	आठ करोड़ चालीस लाख एकवन्न हजार नौ रुपये।	18 (अठारह) महीना
2	रंका	RWD/GARHWA/17/2024-25	चुटिया बलीगढ़ पी०एम०जी०एम०आई० रोड से पंचायत भवन तक पथ निर्माण कार्य।(३.800 कि०मी०)	483.377	चार करोड़ तिरासी लाख सैंतीस हजार सात सौ रुपये।	18 (अठारह) महीना

- वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :- 20.08.2024
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 28.08.2024 अपराह्न 5:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 30.08.2024 पूर्वाह्न 11:30 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, शा०का०वि० कार्य प्रमण्डल, गढ़वा।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०: 06561-299963
- विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट [www.jharkhandtenders.gov.in](http://www.jharkhandtenders.gov.in) पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा

## झारखण्ड सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग

### कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

तृतीय तल्ला, नया समाहरणालय भवन, पपरवाटांड, गिरिडीह, झारखण्ड - 815301

### ई-अतिअल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा सं० :-06/R2/2024-25/RWD/EE/GIRIDIH दिनांक :- 10.08.2024 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा निम्नविवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम :-

क्र० सं०	आईडेंटिफिकेशन संख्या/ पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपया में)		कार्य समाप्ति की अवधि	टेंडर कॉल संख्या
			अंक में	अक्षर में		
1.	RWD/GIRIDIH/4/7/2023-24	बागोडीह रोड से नीमासिंघा तक पथ निर्माण कार्य। (लं०-1.000 कि०मी०)	98,95,900.00	अनदानव लेख पंचायत हजार नौ सौ रु० मात्र	06 माह	तृतीय

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 14.08.2024
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 21.08.2024 अपराह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 23.08.2024 अपराह्न 3.30 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह, तृतीय तल्ला, नया समाहरणालय भवन, पपरवाटांड, गिरिडीह, झारखण्ड - 815301
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 06532-225381
- विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट [www.jharkhandtenders.gov.in](http://www.jharkhandtenders.gov.in) में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गिरिडीह

PR 332570 REO (24-25)\_D





# सावन की चौथी सोमवारी पर आम्रेश्वर धाम में डेढ़ लाख लोगों ने किया बाबा का जलाभिषेक

आजाद सिपाही संवाददाता

खूटी। पवित्र सावन महीने की चौथी तीसरे सोमवारी पर क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा आम्रेश्वर धाम अंगारबारी सहित जिला के अन्य शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लगभग डेढ़ लाख लोगों ने बाबा भोलनाथ का जलाभिषेक किया। प्रसिद्ध बाबा आम्रेश्वर धाम के स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु रविवार रात से ही यहां पहुंचने लगे थे और देर रात से ही मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गयी थी। तड़के साढ़े तीन बजे जैसे ही मुख्य मंदिर और अन्य मंदिरों के पट खुले, पूरा वातावरण बोल बम और हर-हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान घंटों कतार में खड़े भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर परिसर में शांति और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट और प्रबंध समिति के सदस्य व्यवस्था को संभालते हुए भक्तों को कतारबद्ध मंदिर में प्रवेश कराते रहे। तड़के प्रारंभ हुए



पूजन अर्चन का यह दौर पूरे दिन अनवरत जारी रहा। साथ ही बोल बम तथा हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ ही बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के अधिकारी व सदस्य भी दिन भर सक्रिय रहे। साथ ही दंडाधिकारियों के साथ काफी संख्या में महिला-पुरुष बल के जवानों की तैनाती की गयी है। मेले में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये हैं। जलाभिषेक के लिए आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसे ध्यान में रख बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष लाल ज्ञानेंद्रनाथ शाहदेव व महामंत्री मनोज कुमार के अलावा संतोष पोद्दार, श्रीपाल



जैन, सुखदेव भगत, कैलाश भगत, आनंद वर्मा, अरुण कर, प्रेमचंद महतो, जगदीश नाग, उपेंद्र कश्यप, पहलाद कुमार, दुर्गा महतो, प्रेमनांद तिवारी, सुरेंद्र गुप्ता, रविकांत मिश्रा, ओम प्रकाश कुमार, दिलीप कर, सत्यजीत कुंडू, हीरा साहू, सुरेंद्र कुमार, केसरी कुमार, दीपक सिंह, गोविंद साहू, मोतीलाल साहू, रोशन



भगत, नीरज पाढ़ी, नरेश साहू आदि प्रबंध समिति के पदाधिकारी व सदस्य पूरे दिन धाम परिसर में मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी करते रहे। दूसरी ओर शहर के पुरातन महादेव मंडा सहित अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक व पूजन अर्चन के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के पुरातन

महादेव मंडा, तोरपा के बाबा नागेश्वर धाम सहित अन्य मंदिरों में भी दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही। देर शाम आयोजित पारंपरिक श्रृंगार पूजन आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

## कलश यात्रा निकाल कर महिलाओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक

खूटी। सावन की चौथी सोमवारी पर करां प्रखंड के तिलमी और डेहकेला में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली और सोमनाथ बाबा धाम में भोलनाथ का जलाभिषेक किया। मौके पर तोरपा के विधायक कोचे मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महिलाओं ने तिलमी के पास कारों नदी से पवित्र जल लेकर बाबा

भोलनाथ का जयकारा लगाते हुए मंदिर पहुंचकर उनका जलाभिषेक किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सावन के महीने में भगवान भोलनाथ की कृपा यहां के लोगों पर हो और भोलनाथ सबका मंगल करें। मौके पर गजेंद्र सिंह, सीमा देवी, कविता कुमारी, बालेश्वर सिंह, संतोषी कुमारी सहित काफी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे।

## बचरा वनवीआर महिला गुपु ने किया सावन महोत्सव का आयोजन

पिपरवार (आजाद सिपाही)। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के बचरा श्रमिक क्लब मे वृमन पावर वन वीआर कालोनी की महिला गुपु के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि बचरा दक्षिणी पंचायत की मुखिया रीना देवी और विशिष्ट अतिथि मे मिनाक्षी सिंह मौजूद थी। आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया, जिसके बाद अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया।

## भाजपा पिपरवार मंडल की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान पर हुई चर्चा



पिपरवार (आजाद सिपाही)। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के वीएमएस कार्यालय बचरा में भाजपा पिपरवार मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त पिपरवार मंडल अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार शर्मा एवं संचालन राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के पिपरवार मंडल संयोजक एसके चौधरी उपस्थित थे। बैठक में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष धीरेंद्र शर्मा सहित सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। बैठक में अग्रस्त क्रांति के बलिदानों को लेकर 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच तिरंगा यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बुध स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में गिरिजा प्रसाद, रामजी सोनी, कृष्णा प्रसाद, उदय दुबे, संजय पासवान, मोहम्मद ताज, अश्विनी दास, विजय लाल, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्र सिंह, मुखिया रीना देवी, लक्ष्मण कुमार मंडल, दिलीप अंबेड, अनिल पांडेय, मुन्ना पांडेय, संतोष गिरी, सुरेश्वर प्रसाद, दशरथ साव, मिथुन कुमार सिंह, काली शंकर, संजय ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

## सड़क दुर्घटना में छोटू मछुआ की मौत

बुंदू (आजाद सिपाही)। बुंदू थाना क्षेत्र के रांची टाटा पथ पर गोसाइंडीह पेठोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में कंची गांव निवासी छोटू मछुआ उम्र 55 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 3:00 बजे छोटू मछुआ अपने घर जाने के लिए गोसाइंडीह गांव के पास सड़क पार कर रहा था। इसी बीच एक ट्रैलर अपनी स्पेड में ले लिया। जिससे छोटू मछुआ का घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया।

## राजधर साईडिंग से जुड़े रैतों के साथ जीएम ने की बैठक



पिपरवार (आजाद सिपाही)। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक संजीव कुमार ने पिपरवार क्षेत्र के राजधर साईडिंग से जुड़े विस्थापित रैतों के साथ बैठक की। इस बैठक में सबसे पूर्व हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सह रैत जाहिद अली सहित अन्य लोगों ने बुके देकर जीएम संजीव कुमार का स्वागत किया, जिसके बाद जीएम संजीव कुमार ने रैत जाहिद अली द्वारा प्रबंधन को सौंपे गये मांग पत्र पर चर्चा की गई, जिसमें प्रबंधन द्वारा रैतों की मांगों पर साकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया। रैत जाहिद अली ने जीएम को समस्या से अवगत कराते हुए पेड़ पौधा का मुआवजा भुगतान कराने एवं प्लॉट की समस्या का समाधान कराने की मांग की, जिस पर जीएम संजीव कुमार ने जल्द इस समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। इस बैठक में जीएम संजीव कुमार, अशोक पीओ संजय कुमार, एरिया रिक्वयरीटी ऑफिसर अरुण कुमार महतो के अलावा स्थानीय विस्थापित रैतों में जाहिद अली, देवेन्द्र कुमार, मोहम्मद वसीम, अजीत कुमार, रविंद्र राम सहित अन्य लोग मौजूद थे।

## सिंगपुर से लापता आदिति

सिंगपुर (आजाद सिपाही)। मुरी ओपी अंतर्गत सिंगपुर निवासी आदिति कुमारी उम्र 16 वर्ष गत संध्या से लापता है। पुलिस खोजबीन शुरू कर दी है। लड़की का हलिया चेहरा गोल, रंग गोरा, उचाई 5' फीट, लाल की शर्ट और काला पेंट है। पिता जय प्रकाश राम हैं।

## सीनियर सिटीजन की प्रखंड परिसर में बैठक

सिंगपुर (आजाद सिपाही)। सोमवार को प्रखंड परिसर में सीनियर सिटीजन की बैठक संपन्न हुई जिसका आयोजन वरिष्ठ नागरिक और जन समस्या समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक ने की। जितेंद्र बड़ाइक ने वरिष्ठ नागरिक और जन समस्या समिति के एकजुटता, उम्सह को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक और अन्य लोगों के समस्याओं समाधान के लिए आइए समाज को बेहतर बनाने का काम करें। संकल्प लें कि जिनका काम में दिलबंद हो रहा है, उससे संबंधित अधिकारों को बताएं। दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिक को प्रखंड कार्यालय एवं प्रशासनिक जगहों पर जाकर काम के माध्यम से परिचय बढ़ाएं। वरिष्ठ नागरिक में निर्मल साहू, जन समस्या समिति के नरेश चंद्र करंजी, भुनेश्वर प्रसाद साहू, विजय चंद्र महतो, नगेंद्र गोस्वामी त्रिलोचन साहू, हेमंत सिंह, माधुर चंद्र पहली, हरिनाथ स्वामी, आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जनसमस्या के समाधान के लिए बीडीओ, सीओ से आवेदन तैयार किया, जिसमें प्रखंड के अधीनस्थ कर्मचारियों और पंचायत के काम देखने वालों की मोबाइल फोन नं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

## प्राथमिक सदस्य नहीं होने के बावजूद चुना गया अध्यक्ष

अड़की (आजाद सिपाही)। प्राथमिक सदस्य नहीं होने के बावजूद बनाया गया भाजपा अड़की मंडल का अध्यक्ष। बताते चलें गुरुवार खूटी जिला अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के अड़की मंडल अध्यक्ष की चुनाव बंद कमेरे में रूप से कर दिया गया। परशुराम दास को मंडल अध्यक्ष अड़की के चुप में घोषणा कर सोमवार को वाटरगुप शुभ में डाला दिया गया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अड़की मंडल अध्यक्ष चुनाव में किसी को न कोई जानकारी दी गयी और न ही पहले से चल रहे संगठन को भंग किया गया है। इसको लेकर संगठन में अस्मजस्य है। नियम के अनुसार नाम चयन के पूर्व अधिसूचना जारी कर मंडल पर एक बैठक कर आम सहमती से अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था। परंतु ऐसा न होकर जिला अध्यक्ष चंद्र शेखर गुप्ता खूटी ने परशुराम दास का नाम नवनिर्वाचन कर दिया। इसको लेकर वर्तमान संगठन के कार्यकर्ता एवं सभी मोर्चा के पदाधिकारियों में काफी रोष व्यक्त किया है।

## रैत विस्थापित मोर्चा ने मजदूरी बढ़ाने पर की चर्चा

पिपरवार (आजाद सिपाही)। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के सीएचपी रिजेक्ट कोल लॉडिंग के पास रैत विस्थापित मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में रिजेक्ट कोल लॉडिंग में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मजदूरों ने बताया कि वर्तमान मजदूरी पुराने निर्धारित रेट से किया जा रहा, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ चुका है। कम मजदूरी मिलने से मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में सभी मजदूर ने एक स्वर में कहा कि जब तक लॉडिंग मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक लॉडिंग कार्य नहीं होगा। इस मामले को लेकर रैत विस्थापित मोर्चा के द्वारा आज सभी डीओ, होल्डर और प्रबंधन से वार्ता कर मजदूरी बढ़ाने की मांग करेगा।

## विवेक बने भाजयुमो के रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष

आजाद सिपाही संवाददाता

तमाड़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बबूलाल मण्डा के निर्देशानुसार भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने विवेक आनंद जायसवाल को दुबारा जिला अध्यक्ष मनोनीत करते हुए बताया कि, विवेक जायसवाल ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे रांची ग्रामीण जिला में अच्छा काम किया। उन्होंने रांची ग्रामीण जिला के सभी 18 प्रखंड और 31 मंडलों में युवा मोर्चा का विस्तार सुचारू रूप से करते हुए पार्टी के कार्यों का सफल संपादन किया। इनके कार्यों के देखते हुए भाजपा प्रदेश नेतृत्व में इन्हें पुनः रांची ग्रामीण जिला का



कमान दिया। इनके मानोनयन से पूरे पंचपरगना क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। इनके मानोनयन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, हटिया विधायक

नवीन जायसवाल, कांके विधायक समरी लाल, भाजपा जिला प्रभारी बिनेद सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जिला महामंत्री नरेंद्र कुमार, प्रीतम साहू, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मुंडा, मनोज चौधरी, रंजित लाहिरी, कपिल महतो, गणेश कुंभार, राजेश उरांव, भास्कर मुखर्जी, भाजपा बुंदू नगर मंडल अध्यक्ष आलोक दास, धीरेन महतो, विष्णुपद महतो, अजीत महतो, दीपक साहू, रेखा देवी, किरण देवी, विवेक गुप्ता, महावीर सोनी, पवन जायसवाल, महावीर सोनी, लक्ष्मी सिंह मुंडा, जीतू महतो, संजय महतो, मनीष भगत ने इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिया।

## कांग्रेसजनों ने बीडीओ से की शिष्टाचार मुलाकात मईयां सम्मान योजना का लक्ष्य बढ़ाने का किया आग्रह

आजाद सिपाही संवाददाता

सिल्ली। सोमवार को रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो के नेतृत्व में सिल्ली प्रखंड के कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीडीओ रेणु बाला से शिष्टाचार मुलाकात कर मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के आवेदन जमा होने की प्रगति जानकारी ली। आग्रह किया कि सिल्ली प्रखंड से अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना में जोड़ कर लाभ दिया जाए। यह योजना इंडिया गठबंधन की महत्वाकांक्षी योजना है जो निर्धन महिलाओं के जीवनस्तर

सिल्ली प्रखंड के अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना में जोड़ कर लाभ दिया जाये।

और खानपान में आमूल चूल परिवर्तन लायेगी। जिलाध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो ने बीडीओ से आग्रह किया कि इस कार्य में लगाये गये आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सेवक, प्रज्ञा केंद्र संचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी सरकारी कर्मियों को अर्हता रखने वाली महिलाओं का आवेदन भरने की प्रक्रिया में सहयोग करने

## सीसीएलकर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत मृतक के आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर श्रमिक प्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन

सोमवार को अपनी मोटरसाइकिल नंबर जेएच 01 सीवी 4180 से इट्यूटी करके वापस आने घर जा रहा था।



आजाद सिपाही संवाददाता खलारी। एनके एरिया के केडीएच परियोजना में कार्यरत सीसीएल कर्मचारी करण कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार करण कुमार पिपरवार के कारो गांव का रहने वाला था। सोमवार को अपनी मोटरसाइकिल नंबर जेएच 01 सीवी 4180 से इट्यूटी करके वापस अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में डकरा-पिपरवार

मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन ने करण को अपनी कार में टक्कर मार दी ली। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल करण को डकरा अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर

दिया। इधर घटना की सूचना पाकर कई श्रमिक प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान मृतक के परिजनों के अलावा श्रमिक प्रतिनिधियों ने केडीएच पीओ अनिल कुमार सिंह को ज्ञापन देकर मृतक के आश्रित को नौकरी सहित मिलने वाले अन्य लाभ देने की मांग की है। इस मौके पर कृष्णा चैहान, इकबाल हुसैन, सुनील कुमार सिंह, विनय सिंह मानकी, रामचंद्र उरांव, शैलेश कुमार, डीपी सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिंह, रामलखन गंधू, उदय सिंह, हरेंद्र सिंह, मो इस्लाम सहित कई श्रमिक प्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे।

## मायापुर और लपरा पंचायत में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय जांच दल ने योजनाओं का किया औचक निरीक्षण

आजाद सिपाही संवाददाता

मैकलुस्कीगंज। खलारी प्रखंड के मायापुर और लपरा पंचायत में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय जांच दल द्वारा पंचायत में औचक निरीक्षण किया गया। पंचायत मायापुर में राजेंद्र उरांव का मुर्गी शेड, लालमणि देवी का गाय शेड, गुरुचरण लोहरा का आम बागवानी, मोहन गंधू का डोभा का स्थल निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पंचायत भवन मायापुर में उक्त योजनाओं के अभिलेख की जांच की गयी, और 7 पंजी का भी जांच किया गया। पंचायत लपरा में रूपन देवी का डोभा, रामू उरांव का बिरसा सिंचाई कूप और सुनीता देवी का गाय शेड का स्थल निरीक्षण किया गया। इसके अलावा पंचायत भवन



लपरा में उक्त योजनाओं के अभिलेख के साथ 7 पंजी का जांच किया गया। जांच दल में केंद्र से एसएन मिश्रा उप सचिव और रुचि सिन्हा परियोजना पदाधिकारी मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार राज्य दल से उप निदेशक अनुपम भारती मनरेगा कोषांग और जिला सहायक परियोजना पदाधिकारी जयश्री तिकी शामिल थे। वहीं प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष

कुमार, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, कनीय अभिषेक रमेश कुमार गुप्ता, रविवरंजन कुमार, प्रेमचंद मुर्मु, प्रवीण उरांव, पंचायत सचिव विपिन कुमार वर्मा एवं दिशु कुमारी, ग्राम रोजगार सेवक लाममोहन राम, विश्वरंजन कुमार, कुणाल कुमार, सुधीर कुमार, सुजीत कुमार, महबूब आलम सहित संबधित पंचायत के ग्रामीण उपस्थित थे।

## उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल खलारी में लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन



खलारी (आजाद सिपाही)। उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल खलारी में सोमवार को विद्यालय के चारों हाउस के बीच लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से हुआ। प्राचार्या सिस्टर जयंती और विद्यालय के सांस्कृतिक विभाग के विद्यार्थियों ने दीप प्रज्वलित कर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में सभी कक्षाओं को सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में बांटा गया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में प्रार्थना गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सभी हाउस के द्वारा एक से बड़ कर एक लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया। इनमें राजस्थानी लोकनृत्य, बंगाली लोकनृत्य, गुजराती लोकनृत्य, बिहारी लोकनृत्य, झारखंडी लोकनृत्य, तमिल लोकनृत्य और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख लोकनृत्य आदि शामिल थे। सब जूनियर वर्ग में सेंट जेवियर हाउस प्रथम, सेंट उर्सुला हाउस द्वितीय और सेंट एंजला हाउस तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग में सेंट उर्सुला हाउस प्रथम, सेंट जेवियर हाउस द्वितीय और सेंट एंजला हाउस तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सीनियर वर्ग में सेंट उर्सुला हाउस प्रथम, सेंट जेवियर हाउस द्वितीय और फादर जॉन लैबर्टज हाउस तृतीय स्थान पर आये।

## मईयां समृद्धि योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष : जुबैर अहमद

आजाद सिपाही संवाददाता

खूटी। झामुमो के जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद ने कहा कि राज्य की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए हेमंत सरकार ने प्रईयां समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष आयु वर्ग की 50 लाख माताओं और बहनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इसके लिए 24 हजार महिलाओं का निबंधन हो चुका है। जुबैर अहमद सोमवार को खूटी डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रह थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरिन को छह महीने तक जेल में रखा गया। जेल में ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त करने की बात सोची। पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर सभी सशुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने का निर्णय



लिया। कहा कि रक्षा बंधन के पहले तक सभी 50 लाख महिलाओं का निबंधन कराया जायेगा। महिलाओं ने स्वीकार किया कि हेमंत सोरिन उनके सही मायने में भाई हैं। योजना तेजी से एक-एक घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि खूटी जिले में 35 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन दिया है। अबुआ दिशुम और अबुआ राज सरकार 48 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम। कर रही है। जिलाध्यक्ष

ने कहा कि इस योजना में कुछ दलालों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही है। वैसे लोगों की सूचना दें, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। कहा कि जन कल्याण के लिए राज्य सरकार की यह 35वीं योजना है। मौके पर पार्टी के केंद्रीय सदस्य सुदीप गुड्डिया ने कहा कि मईयां योजना के माध्यम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने का समाज मजबूत होगा। उन्होंने कहा





## भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली मांडर विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा



**चाहो (आजाद सिपाही)।** भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिसका नेतृत्व मंडल युवा मोर्चा महामंत्री राजीव गुप्ता और अध्यक्ष मुकेश सोनी ने किया। यह तिरंगा यात्रा मांडर विधानसभा के संयुक्त तत्वाधान में चाहो मुख्यालय से निकाली गई, जो बीजूपाड़ा स्थित शहीद स्मारक सोमा टाना भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुआ। यात्रा के मकसद के बारे में बताते हुए भाजपा युवा नेता सन्नी टोप्यो ने कहा कि 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने और स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की। यात्रा में पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के प्रो रामनारायण भगत भी शामिल हुए। सैकड़ों बाइक से भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए शामिल हुए। मौके पर भाजपा नेत्री नीतू कुजूर, मंडल अध्यक्ष विजय महतो, किसान मोर्चा के कैलाश प्रसाद गुप्ता, सतीश शाह, अरविंद सिंह, आशीष वर्मन, शशिकांत सिंह, विजय सोनी, रिद्धि राज, आशीष वर्मन, बिजुपड़ा मण्डल अध्यक्ष सतारिंद सिंह, मंडल अध्यक्ष विजय महतो, दीपक पांडेय, हेमन्त शाही आदि शामिल थे।

## ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष ने वितरित किया तिरंगा



**नामकुम (आजाद सिपाही)।** भाजपा रांची ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल बड़ाईक के नेतृत्व में प्रखंड अंतर्गत लाली पंचायत के सुदूर गांव फतेहपुर में स्थानीय ग्रामीणों के बीच हर घर में तिरंगा लगाने को लेकर तिरंगा झंडा का वितरण किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं व बुजुर्गों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रभुदयाल बड़ाईक ने कहा कि प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देशवासी अपने-अपने घरों में तिरंगा लगाए। मौके पर भाजपा खिजरी मंडल के पंचायत संयोजक राजू लकड़ा, लाली पंचायत संयोजक सुरेंद्र महतो, पास्कल लकड़ा, रंजीत मुंडा, सुखदेव मुंडा, छोटू मिर्धा, नवकृष्ण मुंडा, मनोज मुंडा, लक्ष्मीनारायण मुंडा, गोवर्धन मुंडा, पंचमी देवी, अंबिका देवी, सुकून देवी, रामकुमार मुंडा, जगन्नाथ मुंडा आदि शामिल थे।

## घर-घर तिरंगा अभियान के तहत 151 तिरंगा वितरित



**नामकुम (आजाद सिपाही)।** प्रखंड के कुटियातु जिला वितरण अंतर्गत राजध्वजा चौक पर सोमवार को भाजपा नेता सह जिला परिषद सदस्य रामअवतार केकेडू के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच 151 तिरंगा झंडा वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि तिरंगा का सम्मान भारत का सम्मान है। कहा कि हर व्यक्ति अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराकर कुशल जिम्मेवार और देश भक्ति का परिचय दे। मौके पर खिजरी विधानसभा सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह, बनो और बनाओ मंच के सचिव अखिलेश यादव, रामाधार सिंह, गोरखनाथ सिंह, दिलीप साहू, कृष्णा काशी, कंदरु महतो, रघुनाथ महतो, प्रवीण महतो, मनोज महतो, सागर महतो, वनवारी प्रमाणिक आदि उपस्थित थे।

## स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर बैठक



**पिस्कांगड़ी (आजाद सिपाही)।** प्रखंड मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों एवं समय को लेकर सोमवार को बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता नगड़ी सीओ राकेश श्रीवास्तव ने किया। बैठक में नगड़ी प्रखंड के सरकारी उपक्रमों, विद्यालय तथा प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीओ ने बताया कि प्रखण्ड मुख्यालय में सुबह 8.30 बजे, नगड़ी थाना में सुबह 9 बजे, राजकीय उच्च विद्यालय में सुबह 9.15 बजे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9.30 बजे और राजकीय मध्य विद्यालय में सुबह 9.54 बजे झंडोतोलन होगा। इसके अलावा डब्लू जॉन माल्टीपरस बोर्डिंग स्कूल में सुबह 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। मौके पर जिन सदस्य पूनम देवी, उपप्रमुख अफसाना प्रवीण, पंसस शीला देवी, डॉ सुफल एक्का, सरकारी उपक्रमों- विद्यालयों के प्रतिनिधियों आदि थे।

## जन आरोग्य समिति के गठन को लेकर बैठक

**सिकंदीरी (आजाद सिपाही)।** कुच्छू पंचायत सचिवालय में सोमवार को जन आरोग्य समिति के गठन को लेकर कुच्छू के मुखिया सहदेव बेदिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के लिए जन आरोग्य समिति का गठन किया गया। समिति का अध्यक्ष सहदेव बेदिया, मुखिया कुच्छू, उपाध्यक्ष डॉ शशिप्रभा, सचिव एएनएम सुगन्ती बरजो को बनाया गया।

## शिव भक्तों की निकली सात किमी लंबी पैदल यात्रा



**बेड़ो (आजाद सिपाही)।** इटकी प्रखंड के मंडा टांड स्थित शिव मंदिर प्रांगण से सावन महीने की चौथी सोमवार को शिव सेना के शिव भक्तों की विशाल पैदल यात्रा निकली जिसमें सैकड़ों पुरुष महिला, युवा व युवतियां शामिल हुए। करीब 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सभी महादेवी मंदिर पहुंचे। जहां शिव भक्तों ने बाबा पर जलाभिषेक-मुद्याभिषेक किया। वहीं, शिव भक्तों का बेड़ो देवी मंडप चौक में शिवसेना, बजरंग दल, विहिप व सनातन सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया गया।

# सीआइपी के सुरक्षा गार्ड को मिली धमकी, कार्य बहिष्कार

## संस्थान में पांच घंटे तक रहा अराजकता जैसा माहौल

**निदेशक डॉ तरुण कुमार व सिक्वोरिटी कंपनी के एरिया मैनेजर अजय सिंह व केके महली पर लगा तानाशाही कर पैसे वसूलने का आरोप**

### आजाद सिपाही संवाददाता

**कांके।** नई सिक्वोरिटी एजेंसी इंटील्लिजेंस सिक्वोरिटी आफ इंडिया के कार्यभार संभालने के बाद केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान (सीआइपी) विगत 20 दिनों से विवादों में है। बताते चलें कि जब से यह नई एजेंसी आई है तभी से निदेशक डॉक्टर तरुण कुमार व एजेंसी के एरिया मैनेजर अजय कुमार सिंह और सुपरवाइजर केके महली आदि पर यहां कार्यरत सुरक्षा कर्मियों (महिला-पुरुष) के भयावहान, तानाशाही कर प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों से 40-40 हजार रुपए कार्य के बदले में वसूली करने का आरोप लगाते रहा है। पैसे नहीं देने पर बार-बार नौकरी से हटा देने और जान से मार देने तक की धमकी दी जा रही है। सोमवार की सुबह 11 बजे सिक्वोरिटी एजेंसी के लोगों पर एक सुरक्षा कर्मियों को जान से मारने की धमकी देकर एजेंसी द्वारा दिए फॉर्म शीघ्र भरकर देने और 40 हजार रुपये शीघ्र देने का दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया



सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करते सुरक्षा कर्मियों।

है। सुरक्षाकर्मियों से गाली गलौज करने और उसे जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों ने सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कार्य बहिष्कार कर दिया और निदेशक कार्यालय के बाहर एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि निदेशक की भी नियुक्ति गलत है। निदेशक यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी कमाई के चक्कर में गरीब सिक्वोरिटी गाइड्स को कंपनी के एरिया मैनेजर अजय सिंह और सुपरवाइजर केके महली से जबरन पैसे की वसूली करवा रहे हैं। इस संबंध में सुरक्षा कर्मियों से पूछे जाने पर पता चला कि इस दिन सुबह 11 बजे सुरक्षा एजेंसी के भेजे कुछ लोग सरवर आलम नामक एक गार्ड के पास पहुंचे और गाली गलौज करते हुए

एजेंसी को 40-60 हजार जमा करने को कहा। उसके बाद अलग से सभी गार्ड 25 हजार रुपये जमा नहीं करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गयी। इसके बाद सरवर अली नामक गार्ड ने इसकी जानकारी अन्य गार्डों को दी। इधर, एजेंसी के एरिया मैनेजर मौके पर पहुंच कर सभी गार्डों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को दिये। उसके बाद उसमें नियम व शर्त के तीन पन्ना को पढ़कर सुनाया, जो गार्डों के नियमविरुद्ध था। यह देख सभी सुरक्षा गार्ड और उग्र हो गये। क्रोधित गार्डों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़कर फेंक दिया और अजय सिंह को घेर कर उससे नौकरी के नाम पर लिये गये 40-60 हजार रुपये लौटाने की मांग करने लगे। वहीं, दर्जनों अन्य भुगतभोगी जो सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिये

पहुंचे थे वे भी अजय सिंह को घेरकर अपने डूबे 50-50 रुपये की मांग करने लगे। आरोप लगाया कि उनसे भी 50-50 हजार रुपये लेकर ज्वॉइनिंग लेटर देने के बावजूद ना ही नौकरी दी गई और ना ही पैसे लौटाये। उधर, खबर पाकर संवेदक संघ के अध्यक्ष बांवी खान व सचिव पवन कुमार पहुंचे और गार्डों को आश्वस्त किया कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिये किसी भी तरह का नियम व शर्त कॉलम नहीं भरना होगा। साथ ही एजेंसी के लोगों द्वारा जो धमकी दी जा रही है। उसके विरुद्ध कांके पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उसके बाद सभी गार्ड लगभग 4 बजे अपने अपने कार्य पर लौटे। इस संबंध में निदेशक डॉ तरुण कुमार का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं, इंटील्लिजेंस सिक्वोरिटी ऑफ इंडिया के एरिया मैनेजर अजय कुमार सिंह ने बताया कि उन पर पैसे लेने लगा आरोप बेबुनियाद है। सुपरवाइजर केके महली के विरुद्ध शिकायत मिली है। कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से चल रहे विवाद को भी सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठकर समाप्त किया जाएगा।

# मांडर का संपूर्ण विकास ही मेरा लक्ष्य : नेहा तिकी



आजाद सिपाही संवाददाता

**लापुंग।** प्रखंड में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिकी ने सोमवार को तीन पीसीसी पथ व एक पुलिया के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसमें दौलैचा पंचायत के गाड़ा में गाड़ा नदी से पछमाहा तक पीसीसी पथ, बोरकरंदा पंचायत के पबीरा में मादी मुंडा के घर से पबिरा डाइटेला तक और हुलसु पंचायत के कथकुवारी झोरा टोली

## 82 विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरित



**लापुंग (आजाद सिपाही)।** प्रखंड में विभिन्न विद्यालय के 82 छात्र-छात्राओं के बीच विधायक शिल्पी नेहा तिकी साइकिल वितरित किया। साइकिल मिलने से छात्र-छात्राओं में खुशी देखी गयी। वहीं विधायक ने कहा कि साइकिल मिल जाने से बच्चों को पैदल आने-जाने से निजात मिलेगी। मौके पर बीडीओ उषा मिंज, प्रखंड अपूर्ति पदाधिकारी सह प्रभार कल्याण पदाधिकारी विनोद नारायण झा, वीपीओ लीलावती तिकी, प्रधानाध्यापक शिव प्रसाद महतो आदि थे।

उनका लक्ष्य है। ग्रामीण भाई-बहनों को विकास कार्यों के साथ ही अपने जीवन को भी उस रूप में ढाल देना चाहिये जिससे सभी को प्रेरणा मिले। उसके बाद लापुंग सभागार में पत्रकारों से रूबरू हुई।

## बाल सुरक्षा हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी : बीडीओ



**इटकी (आजाद सिपाही)।** छोटानगपूर सांस्कृतिक संघ के तत्वाधान में प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को बाल संरक्षण को लेकर कार्यशाला आयोजित हुआ। इस अवसर पर बीडीओ शशि निलिमा डुंगडुंग ने कहा कि बाल सुरक्षा हम सबकी एक बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे देश के भविष्य हैं। उनसे संबंधित किसी प्रकार की बात हो तो इसकी

जानकारी दें, ताकि बाल कल्याण समिति के साथ मिलकर समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने बच्चों को नशापान से दूर रख कर उनके भविष्य को निखारने की बात कही। वहीं, संस्था की सचिव डॉ सच्चि कुमारी ने बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि बाल मन अपराध मुक्त हो इसके लिए बाल अपराधमुक्त समुदाय के

निर्माण में कानून की भूमिका के साथ समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक है। प्रमुख किरण उरांव, उपप्रमुख परंज आलम, एएसआई ने अनुज प्रमोद यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इसके पूर्व बीडीओ एवं संस्था की सचिव ने द्विप प्रचलित कर कार्यक्रम उद्घाटन किया। संचालन अर्चना आहन्द और धन्यवाद ज्ञापन कुमार पिपुय ने किया।

# सड़क में गड्डे या गड्डों में सड़क



आजाद सिपाही संवाददाता

**पिस्कांगड़ी।** प्रखंड के दक्षिणी टुडूल पंचायत के टुडूल गांव के रिंग रोड और नगड़ी कुल्लोय गांव को जोड़ने वाली लगभग तीन किलोमीटर लंबी मुख्य कच्ची सड़क में एक हजार छोटे-बड़े गड्डे उभर आये हैं। उक्त सड़क के दोनों ओर कई गांव बसे हैं, जिसमें निवास करने वाले हजारों ग्रामीणों के लिए यही मुख्य पथ है। पर दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 साल में ना जाने कितने सांसद और विधायक बने, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड के एक तेज तर्रार विधायक भी इसी गांव में रहते हैं। पर वो भी कभी इस कच्ची सड़क को बनाने की पहल नहीं किए। इसके अलावे इस गांव में एक आईपीएस अधिकारी भी रहते हैं पर उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। वहीं, विद्यार्थियों का कहना है कि इस सड़क में इनके गड्डे हैं की पता ही नहीं चलता कि हम सड़क पर चल रहे कि किसी जंगली रास्ते से, जहां केवल उबड़

खावड़ पथ है। वहीं, गांव की महिलाओं ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण गर्भवती महिलाओं को आने-जाने में भीषण परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुःख की बात है कि आज तक हमारे गांव की इस सड़क को बनाने में किसी भी नेता-अधिकारी-जनप्रतिनिधि में रूची नहीं दिखायी। वहीं, मुखिया संजय उरांव ने बताया कि आजादी के 75 साल से अधिक और झारखंड राज्य गटन के 24 साल बीत जाने के बावजूद कभी सड़क को बनने की पहल नहीं की गयी। मुखिया ने बताया कि यह रोड पक्कीकरण हो जाने से नगड़ी प्रखंड कार्यालय से नये विधानसभा भवन और हाईकोर्ट की दूरी चार किलोमीटर तक कम हो जायेगी। ग्रामीणों का कहना है कि वो विधानसभा क्षेत्र के बीच पड़ने वाले इस कच्ची सड़क को शीघ्र बनाने की मांग टुडूल, डोरिया टोली, कुदलौंग होटवासी आदि गांवों के हजारों लोगों ने झारखंड सरकार व जनप्रतिनिधियों से की है। अब देखना यही है कब दिन बहुरते हैं।

## मुखिया के निलंबन को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से मिले सन्नी टोप्यो और गंगोत्री कुजूर



**मांडर (आजाद सिपाही)।** सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोड़ा के गलत निलंबन को लेकर भाजपा के युवा नेता सन्नी टोप्यो व पूर्व

विधायक गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में मुखिया संघ ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि एक आदिवासी महिला मुखिया को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और पंचायती राज निदेशक को बुलाकर इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।

## भाजपाइयों ने शहीदों की प्रतिमाओं की सफाई की



**अनगड़ा (आजाद सिपाही)।** हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनगड़ा मंडल अध्यक्ष रामनाथ महतो के नेतृत्व में शहीदों की प्रतिमा एवं स्मारक स्थल की साफ सफाई की। इस दौरान अनगड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, गौदलीपोखर में शहीद निर्मल महतो व शहीद हरखनाथ महतो तथा मासु मिलन चौक में शहीद राजकुमार महतो की प्रतिमा और स्मारक स्थल की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर गौदलीपोखर में सैकड़ों लोगों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, मनोज कुमार चौधरी, नरेश साहू, रामसाय मुंडा, जगेश्वर महतो, सुनील कुमार महतो, अगमलाल महतो, राजु प्रमाणिक, संतोष कुमार महतो, सिकंदर अंसारी, ज्योतिष महतो, राजेन्द्र महतो, परमेश्वर महतो, संजय साहू, शिवलखन साहू आदि शामिल हुए।

## कैब्रिज ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान का हुआ आयोजन



**नामकुम (आजाद सिपाही)।** कैब्रिज ग्रुप के उच्च शिक्षण संस्थानों में सोमवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ ग्रहण सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कैब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राचार्य डॉ एन रंगनाथन, कैब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक में प्राचार्य डॉ एनके यादव, कैब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ टिचर्स एजुकेशन में प्राचार्य डॉ रविंद्र कुमार के समक्ष विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ ली। इसके पूर्व कैब्रिज पॉलिटेक्निक (सीआईपी) के विद्यार्थियों ने बहवा गांव में रैली निकाल आसपास के लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक डॉ नविन सिन्हा, डॉ पीएस शर्मा, डॉ सत्येश कुमार ने नशापान के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी।

## मृतक के परिवार को पहुंचायी गयी सहायता सामग्री



**ओरमांडी (आजाद सिपाही)।** प्रखंड के हरचंडा गांव की सुकरी देवी (950 का बीते दिनों निधन हो गया था। इसकी खबर पाकर विधायक राजेश कच्छप के सौजन्य से विधायक सलाहकार सह काग्रिस के वरिष्ठ नेता रमेश उरांव ने परिजनों को चालित सहयोग के रूप में दिया। मौके पर औद्योगिक खनन के विधायक प्रतियति हरिमोहन महतो, ग्राम प्रधान देवेन्द्र पहान, बिजजू उरांव, मृतक के पुत्र शंकर उरांव रामचंद्र उरांव आदि थे।



## विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर कैडल मार्च आज विभाजन का दंश झेल चुके पीड़ितों का किया जायेगा सम्मान

डालटनगंज सीबीसी द्वारा योथ सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में लगाई जाएगी दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी हर घर तिरंगा रैली का होगा आयोजन, आम लोगों से तिरंगा फहराने की अपील एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया जाएगा

पौधारोपण आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। डालटनगंज केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योथ सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय में 14-15 अगस्त को दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। इन कार्यक्रमों में विभाजन की पीड़ा झेल चुके लोगों या उनके वंशजों का सम्मान भी किया जाएगा। इसके अलावा मंगलवार को विभिन्न जागरूकता एवं प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर मेदिनीनगर शहर में राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शाम सात बजे से कैडल मार्च निकाला जाएगा। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की हिस्सेदारी होगी।

### तिरंगा फहराने की अपील

आम लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने एवं भारत की स्वतंत्रता को लड़ाई में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाल कर हर घर तिरंगा

## ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में अंतर सदन मेहंदी कला प्रतियोगिता का आयोजन

आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सभाकक्ष में छात्राओं द्वारा अंतर सदन मेहंदी कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बड़े-चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी सदन बायन, इलियट, शेक्सपीयर एवं कीट्स की छात्राओं ने निर्धारित विषय पर आधारित मेहंदी कला कौशल का हाथ पर प्रदर्शन किया। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दो समूहों में बांटा गया। समूह ए में कक्षा 6वीं से 8वीं तक और समूह बी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं थीं। सभी ने काफी सुंदर और मनमोहक मेहंदी प्रदर्शन किया। जिसके बाद विद्यालय के नियुक्त निर्णायक दल ने परिणाम घोषित किया। इसमें समूह ए में साक्षी कुमारी (आठवीं) बायन सदन से,

### लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आंदोलन स्थगित

सतरास/तेतुलमारी 9आजाद सिपाही। नगरीकला के ग्रामीणों ने पानी, बिजली सहित मूलभूत समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की थी। इस पर सोमवार को बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र के एपीएम चंदन श्रीवास्तव गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को एक माह के अंदर धातल पर लाने का लिखित आश्वासन दिया। इस दौरान विवाद भवन के निर्माण के लिए जगह भी चिन्हित किया। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने सिजुआ व कतरास क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार को तालाबंदी की घोषणा की थी।

### पथरा मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक

हुसैनबाद (आजाद सिपाही)। अंतर्गत पथरा राजकीय कृत मध्य विद्यालय में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई।



### एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत होगा पौधारोपण

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ ही दुनियाभर के लोगों से अपील करते हुए कहा था कि वे अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीर 'प्लांट फॉर मदर' (एक पेड़ मां के नाम) के साथ जरूर साझा करने की भी बात कही थी। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन 14 अगस्त को किया जाएगा। वहीं, राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में, सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभाजन के दौरान हुई त्रासदी को याद रखना, और उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने अपने प्रियजनों, घरों और जीवन को खो दिया था। 14-15 अगस्त, 2024 की आधी रात को पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द और हिंसा भी देश की स्मृति में गहराई से अंकित है। हालांकि, देश बहुत आगे बढ़ गया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए एक कुतूहल राष्ट्र, मातृभूमि के उन बेटे-बेटियों को भी नमन करता है, जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।

फहराने की अपील की जाएगी। रैली में आम लोगों के साथ-साथ एनसीसी कैडेट्स, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक एवं छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विद्यार्थियों के बीच देशभक्ति गीत, रंगोली एवं

पेंटिंग्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में सभी छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं। रचनात्मक कृतियों/प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र के साथ-साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा।

### विस चुनाव की तैयारी को लेकर एसएसपी ने की समीक्षा बैठक

धनबाद (आजाद सिपाही)। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर धनबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर सोमवार को धनबाद जिला पुलिस मुख्यालय में एसएसपी एचपी जनार्दनन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। जिसमें जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। इस एसएसपी ने विधानसभा चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर विभिन्न विन्दुओं यथा विधि-व्यवस्था संधारण, चुनाव के दौरान अपराध के रोकथाम, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी अभियान को लेकर रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। एसएसपी ने संवेदन व अति संवेदनशील बूथों के विन्दितीकरण कार्य पर गति लाने सहित कई निर्देश दिया।

## विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व बदलने की जरूरत: अभिमन्यु सिंह

टीम अंजू अभिमन्यु का विश्रामपुर में खुला प्रखंड स्तरीय कार्यालय

आजाद सिपाही संवाददाता

विश्रामपुर/पलामू। विश्रामपुर मुख्यालय में सोमवार को टीम अंजू अभिमन्यु का प्रखंड स्तरीय कार्यालय खुला। जिसका उद्घाटन वरीय समाजसेवी सह राजनेता अभिमन्यु उर्फ बबलू सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता टीम अंजू अभिमन्यु के नगर अध्यक्ष श्याम बिहारी विश्वकर्मा व संचालन मिडिया प्रभारी राहुल दुबे ने किया। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि हम जात धर्म की बात नहीं, सिर्फ

## ओबीसी एकता अधिकार मंच ने लोगों से किया जनसंवाद, फूका संघर्ष का विगुल सभी सरकारों ने ओबीसी को सिर्फ छला है : ब्रह्मदेव प्रसाद

आजाद सिपाही संवाददाता

विश्रामपुर/पलामू। ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद उर्फ बीडी प्रसाद के नेतृत्व में विश्रामपुर विस क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसके माध्यम से पिछड़े समाज के लोगों को राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक जैसे विभिन्न मुद्दों पर एकजुट और जागरूक किया जा रहा है। सरकारी-गैरसरकारी सेक्टरों में जनसंख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करने का मांग भी उठाया जा रहा है। इस क्रम में सोमवार को विश्रामपुर विधानसभा अंतर्गत



कार्यकर्ताओं को संबोधित करते संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद।

उंटारी बाजार स्थित मां भगवती मंदिर प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद यहां पिछड़ा एवं ओबीसी की आबादी 60 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद

भी सरकार ओबीसी वर्ग को मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। जो कतई न्यायोचित नहीं है। राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग को जातीय जनगणना के आधार पर 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

### बबन राम के दूसरी बार नगर अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित




विश्रामपुर/पलामू (आजाद सिपाही)। भाजपा नेता बबन राम को लगातार दूसरी बार पार्टी का विश्रामपुर नगर अध्यक्ष बनाया गया है। जिस पर खुशी व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। वरीय भाजपा नेता शिववंश मिश्रा ने सोमवार को नवनि्युक्त नगर अध्यक्ष बबन राम को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कहा कि बबन राम के कार्यकाल में संगठन और मजबूत हुआ है। वहीं, बबन राम ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। मौके पर रामानंद तिवारी, संतोष राम आदि मौजूद थे।

### उंटारी शिव संपत धाम परिसर में 17 से होगा श्रीलक्ष्मी नारायण महायज्ञ, तैयारी जोरों पर

विश्रामपुर/पलामू (आजाद सिपाही)। उंटारी रोड प्रखंड

मुख्यालय में आस्था का केंद्र बन चुके शिव संपत धाम परिसर में महान मनीषी तपोनिष्ठ पूज्य संत 'श्री त्रिदण्डी स्वामी जी महाराज' के कृपापत्र श्री लक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 17 अक्टूबर से श्रीलक्ष्मी नारायण महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है जिसकी पूर्णाहृति 22 अक्टूबर को होगी। शिव संपत धाम मंदिर कमेटी के संरक्षक सह वरीय भाजपा नेता अरविंद सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को श्रीलक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। जिसमें देश के कई राज्यों से आये महान साधु संतों व ऋषि मुनी आदि शामिल होंगे। बताया कि महायज्ञ के दौरान अन्य कई धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन किया गया है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। श्रीश्री 1008 लक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के परम सानिध्य में होने वाले इस श्रीलक्ष्मीनारायण महायज्ञ को लेकर आसपास के सनातन धर्मावलंबियों में खास उत्साह है।



### डायवर्सन बनने से लोगों में खुशी, 5 किमी कम हुई दूरी

आजाद सिपाही संवाददाता

हरिहरगंज/पलामू। प्रखंड क्षेत्र के एनएच 139 से सरसोत, पथरा पुलिस पिकेट, ढक्का, सलैया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क में बलरा बटाने नदी पर डायवर्सन बनने से लोगों में खुशी है। यह कार्य अभिषेक आनंद स्टोन माइंस और राजा स्टोन माइंस की ओर से सोमवार को हजारों रुपए खर्च कर संपन्न कराया गया। उक्त सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होती है। विदित हो कि एनएच 139 सरसोत मोड़ से सरसोत गांव, पथरा पिकेट होते बिहार राज्य को जोड़ती है और बरसात के मौसम में बड़े वाहनों को छोड़कर छोटे वाहन और पद



### एनएच 139 सरसोत मोड़ से बिहार जोड़ने वाली सड़क जर्जर

एनएच 139 सरसोत मोड़ से बलरा, बटाने नदी, सरसोत गांव, पथरा पुलिस पिकेट के रास्ते बिहार राज्य को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हालात में है। इस पर किसी क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों ने अब तक अपना ध्यानकूट नहीं किया। जिसका खामियाजा आज भी सरसोत गांव जैसे कई गांव के राहगीर भुगत रहे हैं।

यात्रा करने वाले छोटकी बटाने बराज से हो कर जाना पड़ता है। जिससे लोगों को पांच किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। डायवर्सन बन जाने से अब 5

किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। इससे ग्रामीण सहित कई राहगीरों ने खुशी जाहिर करते हुए माइंस संचालक के प्रति आभार प्रकट किया है।

### डालसा ने अनाथ दिव्यांग गुलासा परवीन की मदद की



धनबाद (आजाद सिपाही)। डालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सन न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकर के अध्यक्ष राम शर्मा के निर्देश पर डालसा सचिव राकेश रोशन द्वारा टीम गठित कर जिले में 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए 45 दिवसीय विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके तहत झरिया क्षेत्र के पीएलबी द्वारा जन्म से दिव्यांग गुलासा प्रवीण को चिन्हित कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डालसा सचिव को सूचित किया। इसके बाद डालसा सचिव द्वारा तत्काल कार्रवाई कर दिव्यांग का आधार कार्ड बनवाकर दिव्यांग प्रमाण निर्गत करवाया। साथ ही स्पॉन्सरशिप स्कीम एवं दिव्यांग पेंशन के तहत मिलने वाली आर्थिक लाभ दिलाने के लिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनवाकर पौष्टिक आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। साथ ही क्रिश्चियन मिशन एनजीओ में शिक्षा के लिए नामांकन करवाया जाएगा।

### लाखों शिवभक्तों ने चिड़काधाम में चढ़ाया जल

पिंड्राजोरा (आजाद सिपाही)। सावन की तीसरी चौथी सोमवारी को लाखों शिवभक्तों ने दामोदर नदी से पूजा अर्चना कर जल उठाकर चिड़का धाम में भगवान भोलोनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे रास्ते बोल बम का नारा गुंजता रहा। वहीं, भाजपा के प्रजापति हीरोज ने सेवा शिविर के साथ जागरण का भी आयोजन किया था। मां भवानी सेवा समिति चैनपुर, राधे प्लोवर्स तेलमटिया, नवयुक्त सेवा संघ चास आदि संस्थानों की ओर से सेवा शिविर लगाया गया था। इस मौके पर बिककी कुमार, कुश प्रजापति, बासु कुमार, टिकू कुमार, महादेव कुमार, राजेश महतो, बिधान कुमार बासु, बावरी त्रिभुवन रंजीत, करण कुमार, जयराम महतो, अभिषेक कुमार, नितिश कुमार, निखिल कुमार, अक्षय राव, सूरज गोप, राज किशोर आदि ने कांवरियों की सेवा की।

### कार्यालय : जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा

### सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित मत्स्य विभाग के राजस्व जलकरों की मत्स्य पालन हेतु अल्पकालीन बन्दोबस्ती खुला डाक द्वारा करने हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य विभाग के बन्दोबस्ती मुक्त शोश अबन्दोबस्त राजस्व जलकरों की मत्स्य पालन हेतु अल्पकालीन बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक के लिए खुला डाक द्वारा बंदोबस्ती लेने हेतु दिनांक 27.08.2024 को 12.00 बजे अपराह्न में जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय कक्ष में किया जाएगा।

क्र० सं०	सैरात का नाम	ग्राम	पंचायत	प्रखण्ड	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा/जलक्षेत्र	सुरक्षित जमा निर्धारण समिति का अनुमोदन (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	15	17
1	बोंगराम तलाब	बोंगराम	बोंगराम	कोलबिरा	152	697	0.72	1260.00	
2	कुम्बाकेश तालाब (नं० 2)	कुम्बाकेश	लवड़ागढ़	कोलबिरा	128	2852	4.92	6615.00	
3	हुदवा बाँध	हुदवा	हुदवा	बानो	86	8384, 764	5.37	1890.00	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक
4	सैम्हातु तालाब	सैम्हातु	बोरोसोता	बानो	276	1449, 1453	0.42	714.00	
5	कोनसोदे तालाब 1	कोनसोदे	कोनसोदे	बानो	132	2244	1.40	7560.00	
6	कोचेडेगा तालाब	कोचेडेगा	कोचेडेगा	सिमडेगा	5583	-	0.80	5775.00	

डाक की शर्तों:- डाक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डाक बोली के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत, प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा। डाक समाप्त होने पर उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर बाकी प्रतिभागियों की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी एवं उच्चतम डाक वक्ता की प्रतिभूति राशि उच्चतम डाक की राशि में समायोजित की जाएगी। डाक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। अल्पकालीन बन्दोबस्ती की अवधि तालाब/जलकर के अभ्युक्ति कोलम के अनुसार होगी। डाक की स्वीकृति के पश्चात् उच्चतम डाक वक्ता को संबंधित एकरानामा करना अनिवार्य है एवं अद्योहस्ताक्षरी से परवाना प्राप्त किये बिना उक्त जलकर में उच्चतम डाक वक्ता कोई कार्य नहीं करेंगे। बंदोबस्त तालाब का निबंधन, निबंधन कार्यालय द्वारा निर्धारित राशि का स्टॉम्प शुल्क देकर निबंधन कराना अनिवार्य है। अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय किसी भी बोली को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिन राजस्व जलकरों की बन्दोबस्ती दिनांक- 27.08.2024 को नहीं हो पाएगी उन तालाबों की निबंधन समिति दिनांक- 02.09.2024 एवं 09.09.2024 को की जाएगी।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा  
PR 332578 (Simdega)24-25'D





## झारखंड की गठबंधन सरकार ने 4.5 साल केवल सरकारी संसाधनों को दोहन ही किया : सुदेश महतो



### आजाद सिपाही संवाददाता

**धनबाद।** आजसू सुप्रियो सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े चार सालों में केवल सरकारी संसाधनों का दोहन ही किया है। गठबंधन सरकार ने नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं हर वर्ग को छला है। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसने अपनी ही जनता को छला है। इसका नेतृत्व खुद इस सरकार के मुखिया ही कर रहे हैं। राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार की सरकारी संसाधनों का दोहन करना ही प्राथमिकता रही है। इस सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। वे धनबाद में

आयोजित आजसू के मिलन सह अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के समारोह में हम सभी ने यह शपथ ली है कि अगले दो महीने इस अराजकता का नेतृत्व करने वाली सरकार को बेदखल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इस दौरान समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़ आजसू में शामिल हुए नए सदस्यों का सुदेश महतो ने खुद स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर गोमिया विधायक लंबोदर महतो, देवशरण भागत, उमाकांत रजक, पूर्व डीआइजी संजय रंजन सिंह, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, राधेश्याम गोस्वामी और दिलीप सिंह आदि उपस्थित थे।

## आज से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी जायेंगे बेमियादी हड़ताल पर



**बोकारो (आजाद सिपाही)।** अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर अनुसूचित वर्गीय कर्मी हड़ताल पर हैं। इस बीच सोमवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने भी धरना स्थल पर जाकर अनुसूचित वर्गीय कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। इसकी सूचना संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए आवेदन बोकारो डीसी को सौंपा गया। अनुसूचित वर्गीय कर्मचारी संघ की मुख्य मांग में लिपिकों के कुल स्ट्रेथ का 15 प्रतिशत चतुर्थ वर्ग से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नत के माध्यम से भरना शामिल है। चतुर्थ वर्ग के हड़ताल पर जाने की घोषणा से पहले से हड़ताल पर गये कर्मचारियों में भारी उत्साह है।

## पहला कदम स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित



**धनबाद (आजाद सिपाही)।** पहला कदम स्कूल में सोमवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राम शर्मा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश रौशन ने किया। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था। शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सिविल जज सह धनबाद डालसा के सचिव राकेश रौशन थे। उन्होंने डालसा की पहल की सराहना की। कहा कि संस्था प्रत्येक जिले में एक प्रहरी के रूप में कार्य कर रही है। डालसा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग बच्चों को उनके सभी अधिकार और सरकारी सुविधाएं बिना किसी बाधा के प्राप्त हों। इस दिशा में डालसा ने सदर अस्पताल में चार दिन का विशेष शिविर भी आयोजित किया, जिसमें उन बच्चों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए, जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब तक नहीं बने थे। सचिव राकेश रौशन ने बताया कि डालसा का कार्य केवल कानूनी सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करना है। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने भाग लिया और लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर में विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा सके। शिविर के सफल आयोजन में डालसा-चिकित्सा टीम और स्कूल के कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

## भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने शिष्यों के साथ निकली सुनैना किन्नर



**धनबाद (आजाद सिपाही)।** किन्नर कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष सुनैना सिंह किन्नर अपने शिष्यों के साथ भोले की नगरी बाबा धाम के लिए रवाना हुईं। सुनैना सिंह किन्नर ने बताया कि वह 20 वर्षों से बाबा धाम की यात्रा कर उनके दरबार में हाजिरी लगा रही है। जहां अपने जजमानों की खुशियों की प्रार्थना करती हैं। कहा कि बाबा धाम की यात्रा करने से संतुष्टि मिलती है। वहां जाकर देशवासियों व देश की सीमा पर सीना ताने खड़े जवानों की सलामती की प्रार्थना करती हैं। इस मौके पर बबली किन्नर, संजना किन्नर, पायल किन्नर, मुस्कान किन्नर, किरण आदि मौजूद थीं।

# विधायक ने बेरमो वासियों को दी तीन करोड़ की योजनाओं की सौगात बेरमो विस का विकास ही पहली प्राथमिकता : कुमार जयमंगल



विकास योजनाओं का शिलान्यास करते बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनुप सिंह। बच्चों के बीच उपस्थित बेरमो विधायक।

**कहा-जरूरत के अनुसार जनता की मांग पर सारी योजनाओं दी गयी हैं आजाद सिपाही संवाददाता**  
**फुसरो/बेरमो।** विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनुप सिंह ने सोमवार को फुसरो नगर परिषद के विभिन्न वार्ड में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें नागरिक सुविधा मद से स्वीकृत वार्ड संख्या 13 दोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित दुर्गा मंदिर के सामने पेवर ब्लॉक बिल्डिंग का कार्य शामिल है। इसके अलावा वार्ड संख्या 13, 14 और 15 करगली बाजार चौक तीन मुहान स्थान पर नागरिक सुविधा मद से स्वीकृत पेवर ब्लॉक बिल्डिंग का शुभ शिलान्यास भी शामिल था। भवन निर्माण विभाग के तहत फुसरो स्थित राजकीय मध्य विद्यालय न्यू भागलपुर फुसरो में विद्यालय भवन का नवीनीकरण एवं स्कूल के बगल की खाली जमीन पर नए भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। नए भवन में 12 बड़े कमरे, एक हॉल



विकास योजनाओं का शिलान्यास करते बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनुप सिंह। बच्चों के बीच उपस्थित बेरमो विधायक।

सहित शौचालय बनेगा। नये भवन का कार्य 97.63 लाख रूप से किया जाएगा। वहीं, वार्ड संख्या 09-10 में पेवर ब्लॉक बिल्डिंग कार्य के लिए कारीपानी में शिलान्यास किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड के राजाबंगला सीएसएफ शिविर के बगल में दोरी में स्वास्थ्य उप केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ, जिसका निर्माण 55 लाख रूप की लागत से किया जाएगा। लगे हाथ बेरमो प्रखंड के जारंगडीह में भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल बोकारो और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्य किया। यह कार्य 55 लाख रूप की लागत से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस दिन करीब 3 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसमें पेवर

## सरिया में सीएससी संचालक को मारी गोली, 2.89 की लूट



सीएससी संचालक से मिलने पहुंचे विधायक विनोद सिंह, हालत गंभीर, रांची रेफर आजाद सिपाही संवाददाता

**गिरिडीह।** जिले के सरिया थाना अंतर्गत खेडुआ नदी के समीप सोमवार को दिनदहाड़े दो बाइक से पहुंचे अपराधियों ने सीएससी संचालक को गोली मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हमलावर सीएससी संचालक से दो लाख 89 हजार रूप लूट कर फरार हो गए। जांचकर्ता के अनुसार सीएससी संचालक विश्वनाथ यादव सरिया के केशवरी में रहकर सीएससी चलाते हैं। सोमवार को वे अपने केंद्र से दो लाख 89 हजार रूप लेकर बाइक से सरिया बैंक जमा करने जा रहे थे। खेडुआ नदी के समीप पहुंचते ही एक बाइक में सवार दो नकाबपोश युवकों ने बंदूक सटाकर उसके पास से रूपों से भरा बैग लूट लिया। इस दौरान विरोध करने पर एक अपराधी ने सीएससी संचालक पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे के आरपार हो गई। इसके बाद लूटेरे रूपों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के दौरान उक्त मार्ग से पूजा कर लौट रहे महेंद्र मंडल ने सड़क पर खून से लथपथ सीएससी संचालक विश्वनाथ यादव को सरिया में संचालित देवकी अस्पताल ले गए। उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर विधायक विनोद सिंह, एसडीपीओ धनंजय राम, आजसू नेता अनूप पांडे आदि पहुंचे और विश्वनाथ यादव से घटना की जानकारी ली। इस क्रम में चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल विश्वनाथ यादव को रांची रेफर कर दिया। वहीं एसडीपीओ धनंजय राम व सरिया पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है।

## भाजपा ने निकाली पांच किमी लंबी तिरंगा यात्रा

### आजाद सिपाही संवाददाता

**धनबाद।** हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पांच किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा बैंक मोड़ से शुरू हुआ, जो रांगा टांड, बेकार बांध, सिटी सेंटर होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। तिरंगा यात्रा में विधायक राज सिन्हा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल समेत कई वरिष्ठ भाजपाई शामिल हुए। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष कर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वहीं, रणधीर वर्मा



चौक स्थित गांधी सेवा सदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा को विराम दिया गया। इस बाबत विधायक ने कहा कि तिरंगा हमारे भारत की आन बान शान है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि यह तिरंगा इसी तरह शान से लहराता रहे। वहीं, भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर घर तिरंगा वितरण के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भाजयुमो के एक-एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से इस कार्य में लगे हैं।

## बाघमारा के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं : रहित

### आजाद सिपाही संवाददाता

**कतरास।** तेलुलीया स्थित राजद कार्यालय में सोमवार को कतरास राजबाड़ी स्थानडीह के युवाओं ने रहित यादव से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतों विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रहित यादव ने कहा कि बाघमारा के युवा पलायन को मजबूर है,



जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम बाघमारा के एक-एक युवा को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर दीपक यादव, मनोज बउरी, शंकर केवट, रवि केवट, मिहठू केवट, बजरंगी केवट, बाबू सिंह, सूरज कुमार, राजेश पटवा, मिथिलेश सिंह, सोरव दास और हेमंत रवानी आदि उपस्थित थे।

# सभी लंबित कांडों का निष्पादन कर आरोपितों पर कार्रवाई करें: एसपी बोकारो एसपी ने सभी थानेदारों के साथ की समीक्षा बैठक

### आजाद सिपाही संवाददाता

**बोकारो।** बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिला के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सभी थाना प्रभारों के साथ जुलाई महीने के मासिक अपराध की समीक्षा की। इस दौरान अंतिम सोमवारी और रक्षाबंधन पर्व के लिए दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही जिले में लंबित सभी अपराधों यथा हत्या, लूट, रंगदारी, चोरी, महिला अपराध आदि की समीक्षा करते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में बोक्सो से संबंधित कांडों को दो महीना के



अत्याधुनिक अवेध हथियार पकड़ने में शामिल पुलिस उपाधीक्षक नगर, थाना प्रभारी हरला, थाना प्रभारी सिटी, थाना प्रभारी बालीडीह, थाना प्रभारी सेक्टर 12, पुअनि प्रभारत कुमार सिटी थाना, श्रीनिवास झरिया ओपी प्रभारी आदि को सम्मानित किया।

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला

mail-rdsdgmula123@gmail.com

### अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या - RDD/SD/GUMLA/05/2024-25 (2<sup>nd</sup> Call)

शुपु सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	गुमला जिला के चैनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बरवेनगर पंचायत के ग्राम शंख सेम्बरटोली से बहेराटोली के बीच शंख नदी पर पुल निर्माण।	7,40,24,800.00	14,80,500.00	10,000.00	24 माह

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 19.08.2024
- ई-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय - दिनांक 19.08.2024 से दिनांक 25.08.2024 को अपराह्न 5:00 बजे तक
- ई-निविदा खोलने का स्थान - कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला।
- ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 27.08.2024 अपराह्न 2:00 बजे
- ई-निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० - 8709875092 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि का ई-भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रघन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
- विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट [www.jharkhandtenders.gov.in](http://www.jharkhandtenders.gov.in) एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला  
PR 332541 Rural Development(24-25)#D

## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कोडरमा

अतिअल्पकालीन ई-पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:-01/2024-25/RWD/EE/KODERMA दिनांक:-10.08.2024

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कोडरमा द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेंटिफिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)		कार्य समाप्ति की अवधि	टेंडर कॉल
			अंक में	अक्षर में		
1.	RWD/KODERMA/01/2024-25	चेचाई मौजा से महुआटाई मौजा तक पथ निर्माण कार्य। (लंबा-1.000 कि०मी०)	95,71,400/-	पंचानव लाख एकहतर हजार चार सौ रु० मात्र।	09 (नौ) माह	प्रथम

- वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 14.08.2024
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 22.08.2024 अपराह्न 3:30 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 24.08.2024 अपराह्न 3:30 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कोडरमा झारखण्ड, पिन- 825410
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 8709561933/06534-297102
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि का ई-शुल्क भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रघन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट [jharkhandtenders.gov.in](http://jharkhandtenders.gov.in) में देखा जा सकता है।  
ह०/-  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कोडरमा  
PR 332512 Rural Work Department (24-25)\_D

## कार्यालय नगर परिषद, चतरा

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06 / 2024-25

- कार्यालय का नाम :-नगर परिषद, चतरा।
- विज्ञापनदाता का पदनाम :-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, चतरा।
- परिमाण विपत्र विक्री की तिथि :-20.08.2024 को कार्यालय अवधि तक।
- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :-21.08.2024 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :-21.08.2024 को 3:30 बजे अपराह्न।
- निविदा खोलने का स्थान :-कार्यालय नगर परिषद, चतरा।
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रघन की राशि भी घट-बढ़ सकती है।

क्र०	योजना का नाम	वार्ड नं०	परिमाण विपत्र की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति का समय
01	Construction of PCC Road form Chandan Singh house to Butta Ravidas house via Soni Kumari house in ward no.-04 under Nagar Parishad, Chatra	04	5,20,000.00	5,000.00	10,500.00	60 दिन
02	Construction of RCC drain from Keshari Palak Store to Ramesh Jaiswal Shop (Laklakwa nath Mandir) in ward no.-08 under Nagar Parishad, Chatra	08	4,10,000.00	1,000.00	8,500.00	60 दिन
03	Construction of RCC drain from Bijli Office boundary to Anand Motor (Culver) via Manniya Sansad Sri Kalicharan singh's house in ward no.-09 under Nagar Parishad, Chatra	09	9,50,000.00	5,000.00	19,000.00	60 दिन

नोट- नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।  
प्रशासक, चतरा  
PR 332485 (Urban Development)24-25'D





# सोआ बना देश का 14वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय

आजाद सिपाही संवाददाता

**भुवनेश्वर।** स्थानीय शिक्षा और अनुसंधान (सोआ) डीम्ड विश्वविद्यालय को देश में 14वें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग के 9वें संस्करण में सोआ ने देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में 14वां स्थान हासिल करके एक पायदान की बढ़त हासिल की है। रैंकिंग की घोषणा सोमवार को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय ने की। पिछले साल सोआ को देश में 15वां स्थान मिला था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नयी दिल्ली में एनआईआरएफ रैंकिंग की घोषणा



की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्री सुकांत मजुमदार उपस्थित थे। इसी तरह, शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में सोआ पिछले साल की रैंकिंग से दो स्थान आगे बढ़ गया है और इस बार उसने 24वां स्थान हासिल किया है। 2016 से, सोआ ने एनआईआरएफ रैंकिंग में देश के शीर्ष 25 उच्च

शिक्षा संस्थानों में अपना स्थान बनाए रखा है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 9 वर्षों से आयोजित की जा रही है। उनमें से, सोआ को 7 बार शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। इस डीम्ड यूनिवर्सिटी ने पिछले साल इंजीनियरिंग श्रेणी में 27वीं रैंक हासिल की थी और इस साल सुधारकर 26वीं पोजीशन पर पहुंच

गया है। सोआ को चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में देश में 21वां और दंत चिकित्सा और कानून श्रेणियों में नौवां स्थान दिया गया है। इसी तरह, सोआ ने प्रबंधन विज्ञान श्रेणी में 62वां और अनुसंधान श्रेणी में 50वां स्थान हासिल किया है। सोआ के दो शैक्षणिक संस्थान, फैकल्टी ऑफ लॉ (सोआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ) और फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज (इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज) नौवां स्थान हासिल कर शीर्ष दस की सूची में हैं। सोआ को 2022 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएसी) द्वारा फिर से मान्यता दी गई, जिससे ए++ का उच्चतम ग्रेड प्राप्त हुआ। सोआ के संस्थापक अध्यक्ष प्रो (डॉ) मनोजरंजन नायक ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त की और विश्वविद्यालय के संकाय, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों को बधाई दी और उन्हें सोआ को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सोआ कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार नंद ने विश्वविद्यालय को इस सफलता के लिए सभी को धन्यवाद दिया और विश्वविद्यालय से अगले 5 वर्षों में देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने का आह्वान किया।

## नालको के वित्त वर्ष 25 की प्रथम तिमाही के नतीजे शुद्ध लाभ 72% बढ़ कर 601 करोड़ हुआ

आजाद सिपाही संवाददाता

**भुवनेश्वर।** खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के हानवरबल लोक उद्यम तथा देश के अग्रणी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादक एवं निर्यातक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में असाधारण प्रदर्शन के साथ शानदार परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए एक ठोस शुरुआत की है।



भुवनेश्वर में सोमवार को निदेशक मंडल की बैठक में दर्ज किये गये नतीजों के अनुसार नालको ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में प्रभावशाली नतीजे दर्ज किए हैं, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि में शुद्ध लाभ में 72%

निदेशक श्री श्रीधर पात्र ने कहा कि नालको की सुदृढ़ पहली तिमाही कंपनी की उत्कृष्टता और निरंतर विनिर्माण गति के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि उकल डी कोयला ब्लॉक से आंतरिक ग्रहीत कोयले के प्रभाव संचालन ने मजबूत आधार निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि नालको पिछले कुछ वर्षों में मजबूत कारोबारी प्रदर्शन करते हुए एल्यूमिनियम और एल्यूमिना मूल्य श्रृंखला में बेहतर वित्तीय मापदंड दर्ज कर रहा है। नालको ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (5 अंकित मूल्य पर 40%) का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है, जो 367.33 करोड़ है।

## क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान अब संबलपुर मंडल में भी उपलब्ध

आजाद सिपाही संवाददाता

**संबलपुर।** यात्रियों के पास अब संबलपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर टिकट खरीदते समय भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, संबलपुर मंडल ने सभी स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटरों पर क्यूआर कोड डिस्प्ले सेवाओं को स्थापित करने की पहल की है। यूटीएस काउंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा संबलपुर मंडल के सभी स्टेशनों



पर उपलब्ध होगी। विशेष रूप से प्राप्त क्यूआर कोड डिस्प्ले डिवाइसों को सभी यूटीएस काउंटरों पर स्थापित किया जा रहा है और यह कार्य 15 अगस्त

2024 तक पूरा हो जायेगा। अगस्त के अंत तक सभी पीआरएस काउंटरों पर भी क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान होगा। यह यात्रियों के लिए भुगतान को नकदी रहित विकल्प प्रदान करेगा, साथ ही रेलवे की टिकटिंग प्रक्रिया की क्षमता में सुधार करेगा। रिफंड की प्रक्रिया को भी नकदी रहित और तेज बनाया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसार रेलवे टिकटिंग को वास्तव में नकदी रहित बना देगा।

## JAISWAL CCTV

आपके शहर राँची में अपने घर ऑफिस दुकान में लगाएँ

### CCTV कैमरा

कचहरी चौक, राँची

4 कैमरे का सेट अब सिर्फ 14999/-

2 कैमरे का सेट अब सिर्फ 9999/-

अभी कॉल करे 9162992862

स्टेट बैंक के सामने कचहरी चौक, राँची - 834001

रत्न विक्रेता रत्न विक्रेता

## ज्योतिष ग्रहरत्न केन्द्र

ज्योतिष शास्त्र • वास्तु शास्त्र • हस्त शास्त्र • अंक शास्त्र

पंडित शशि कान्त मिश्रा

पता - लाईन टैंक रोड, गोपाल गंज गली, ऑपोजिट-भुतपूर्व वारगेन बाजार, रांची

फोन :- 9334718296, 9835195382, 9431792761

आजाद सिपाही को और से स्ववाधिकाारी लैंडस्केप मोडिया प्रा. लि., प्रकाशक एवं मुद्रक हरिनारायण सिंह के लिए 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रांची 834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा डीपी प्रिंट सोल्यूशंस (ए यूनिट ऑफ डीपी कार्य लिमिटेड), प्लॉट नं. 535 एवं 1272, ललनुवा, पुलिस स्टेशन, रातू, रांची से मुद्रित।

## हर घर तिरंगा अभियान में सोएम हुए शामिल



**भुवनेश्वर (आजाद सिपाही)।** सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोक सेवा भवन में 'हर घर तिरंगा अभियान' कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के कोने-कोने से हर भारतीय इस अभियान से जुड़ गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक सेवा भवन में 'जय हिंद' नारे के साथ 'हर घर तिरंगा अभियान' के केनवास पर हस्ताक्षर किये। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर सम्मान जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए बहुत सम्मान और गौरव का विषय है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जागरूक करना है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने सभी से आगे बढ़कर अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। इसके अलावा, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मत्स्य और पशुधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

## पूर्व तट रेलवे

निविदा चयन सं. SBP-ELECT-2024-T-218  
कार्य का नाम: सरल में वर्निमिन्ट रॉल्ट ओवरहॉलिंग (ROH) ग्रेड एवं नवी सेवा भवन में ग्रीड प्लॉट में इन के ऊपर लोरीकरण।  
कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में): 1,77,72,807/-  
EMD (रुपये में): 2,38,900/-, कार्य पूरा होने की अवधि: स्वीकृत पर (LOA) जारी होने की तिथि से तीन महीने।  
निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: दिनांक 06.09.2024 को 1530 बजे।  
एसी ई-निविदा के तहत डाक/कूरियर/फैक्स या व्यक्तिगत रूप से भेजा गया कोई भी मुसुल प्रस्ताव स्विकार नहीं किया जायेगा, भले ही यह फर्म (Firm) के लेटर हेड एवं निव्व सम्य पर प्राप्त किया गया हो। ऐसे सभी मुसुल प्रस्ताव को अवैध माना जायेगा तथा उसके बारे में किसी विचार के बिना तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।  
उपरोक्त ई-निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्तन/शुद्धिकरण और ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की तारीख से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले वेबसाइट का पूरा अवलोकन करें।  
वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियान (सामान्य-PR-12/P/24-25) सम्मलपुर

## विजिलेंस के जाल में आरएंडबी विभाग के पूर्व प्रमुख जंत्री

- छापेमारी में 12 डीएसपी, 12 इंसपेक्टर, 16 एसआई और अन्य सहयोगी स्टाफ शामिल हैं
- गुवनेश्वर, कटक और झारसुगुड़ा सहित 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी जारी है



सहित 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। विजिलेंस टीम ने भुवनेश्वर स्थित घर से ढेर सारे सोना, हीरे और चांदी के आभूषण जब्त किया। ढेर सारे सोने के आभूषण, सोने के बिस्कुट, सोने-चांदी के सिंके के साथ ही अलग-अलग डिजाइन की महंगी घड़ियां और विदेशी मुद्रा मिला है। अब तक घर की तलाशी के दौरान, श्री मिश्र और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर निम्नलिखित संपत्ति का पता चला है, फ्लैट नंबर 103 अर्पण अपार्टमेंट नयापल्ली भुवनेश्वर, फ्लैट नंबर के-035



कॉन्सोपलिस भुवनेश्वर में तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर के-155-अ कॉन्सोपलिस भुवनेश्वर में 15वीं मंजिल, फाल्कन क्रैस्ट भुवनेश्वर में फ्लैट, ग्रेड आवास भुवनेश्वर में फ्लैट, एसोटेक भुवनेश्वर में 2 फ्लैट, फ्लैट नंबर 17 आशियाना अपार्टमेंट झारसुगुड़ा, फ्लैट नंबर 207 आशियाना अपार्टमेंट झारसुगुड़ा, फ्लैट नंबर 307 आशियाना अपार्टमेंट झारसुगुड़ा, भुवनेश्वर, कटक और जटानों के महंगे इलाकों में 7 प्लॉट खंडगिरि, भुवनेश्वर में प्लॉट नंबर 496, खता नंबर 134/2015 के तहत

जमीन का एक टुकड़ा, दुमडुमा भुवनेश्वर में प्लॉट नंबर 524 खता नंबर 432/1661 के तहत जमीन का एक टुकड़ा, रुद्रपुर भुवनेश्वर में प्लॉट नंबर 304 खता नंबर 314 के तहत जमीन का एक टुकड़ा, रुद्रपुर, भुवनेश्वर में प्लॉट नंबर 358/9051 खता नंबर 412/861 के तहत जमीन का एक टुकड़ा, रुद्रपुर, भुवनेश्वर में प्लॉट संख्या 358/9054 खता संख्या 412/1844 के तहत भूमि का एक टुकड़ा, प्लॉट संख्या 4डी/1386 खता संख्या 3-एपीएल, बिडानासी परियोजना क्षेत्र कटक के तहत भूमि

का एक टुकड़ा, ब्रह्मकुंडल जाटनी में प्लॉट नंबर 258/666 खता नंबर 185 के तहत जमीन का एक टुकड़ा। ये सारे फ्लैटों/भूखंडों की माप और मूल्यांकन/आकलन सतर्कता तकनीकी विंग द्वारा किया जा रहा है। बैंक में 2.7 करोड़ रुपये से अधिक जमा, सोना लगभग 1.5 किलोग्राम, 6 लाख रुपये से अधिक नकद, संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, मैक्सिको, मलेशिया और सिंगापूर की विदेशी मुद्राओं का पता चला, श्री मिश्र द्वारा अपनी वेटी (एमबीबीएस और एमडी) की मेडिकल शिक्षा पर 80 लाख रुपये खर्च किये गये, लगभग एक रोलेक्स घड़ी सहित ब्रांडेड कलाई घड़ियां 13 लाख रुपये, शेयर और म्यूचुअल फंड में अजमा और निवेश का पता लगाया जा रहा है। 2 लज्जरी कारें (मर्सिडीज बेंज और किआ सेरटोस) गाड़ी का पता चला है। तलाश अवीवी जारी है।

## एनटीपीसी स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब ने हरियाली तीज महोत्सव मनाया

आजाद सिपाही संवाददाता

**भुवनेश्वर।** स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब, एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय ने रविवार को रांची में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया। तीज कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि, मीनाक्षी श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य, संयुक्ता महिला समिति का श्रीमती रेखा जैन, अध्यक्ष, स्वयंसिद्धा लेडीज क्लब द्वारा स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर कोयला खनन परियोजना, हजारीबाग की लेडीज क्लब की अध्यक्ष और क्लब की वरिष्ठ समिति के कार्यकारी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मीनाक्षी श्रीवास्तव ने उपस्थित प्रतिभाषियों को संबोधित करते हुए तीज



महोत्सव के महत्व को साझा किया तथा रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन के लिए क्लब सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। रेखा जैन ने कहा कि तीज देश में वर्षा ऋतु के दौरान बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है और यह भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। तीज क्वीन प्रतियोगिता में सुनीता पांडे को तीज क्वीन का खिताब मिला, सोनी ठाकुर प्रथम

रत्न-अप रहीं और सुभांघा द्वितीय रत्न-अप रहीं। तीज कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष शिखा रस्तोगी और पूर्णिमा श्रीखंडे, महासचिव दीपा, संयुक्त सचिव परमेश्वरी, सांस्कृतिक सचिव अनीता प्रसाद, कल्याण सचिव मनसा वर्मा, कोषाध्यक्ष सिन्धुमा माझी आदि उपस्थित थीं।

## सम पीडियाट्रिक्स में जटिल बीमारी का सफल इलाज

- 2 साल की शिशु कन्या की सांस की नली से निकाला गया ट्यूमर



**आजाद सिपाही संवाददाता**  
**भुवनेश्वर।** एजुकेशन एंड रिसर्च (सोआ) द्वारा संचालित आईएसएस एंड सम अस्पताल में एक जटिल और सफल सर्जरी के माध्यम से 2 वर्षीय लड़की के श्वासनली के ट्यूमर को हटा दिया गया है। कलाहांडी जिले के बाबी भोई की 2 वर्षीय बेटी होलिका भोई पीड़ित हो गयी और अस्पताल आयी। बच्ची 3 महीने से सांस, खांसी और कफ संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लड़की के पिता कई अस्पतालों के चक्कर लगाते बने बाद निराश हो गये लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। 18 जुलाई को होलिका को गंभीर हालत में आईएम एंड सम अस्पताल की बाल चिकित्सा

इकाई (पीआईसीयू) में भर्ती कराया गया था। बच्चे की विभिन्न जांचों, सीटी स्कैन और फाइबर ऑप्टिक ब्रॉकोस्कोपी के माध्यम से श्वासन पथ में 272 सेमी का ट्यूमर पाया गया। पीआईसीयू की मुख्य डॉक्टर देवस्मिता रथ की सीधी निगरानी में विशेषज्ञों की सात सदस्यीय टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया। कान, नाक और गले के डॉक्टर आलोक दास और उनकी टीम ने बच्चे के जाँड्यूलर फेसाइटिस ट्यूमर को सफलतापूर्वक सर्जरी करके हटा

दिया। प्रारंभिक उपाय के रूप में बच्चे को पी. आई. सी. यू. वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। शिशु रोग विभाग की प्रमुख डॉ ममतादेवी महार्ति, पीआईसीयू के प्रमुख डॉ देवस्मिता रथ, डॉ दिलीप दास, डॉ आलोक दास, डॉ सत्यव्रत आचार्य, डॉ मनोसिनी मल्लिक, डॉ सागर पंडा, डॉ अर्पणा आराधना, डॉ सुमन सुधा महारणा, डॉ स्मिता शतपथी, डॉ श्रुति प्रधान ने मुख्य भूमिका निभायी।

### THIRD EYE CLINIC

ADVANCE PHACO LASER EYE CARE CENTRE

DR. VISHAL CHOUDHARI  
OPHTHALMOLOGIST

Contact For More Details

Mob - 7003381944, 9431594628

NH- 33 Near Madarsa, Irba, Ranchi - 835219

Branch 2 : Sri Sai General Store, Dipatoli, Ranchi -9

### DAS MUSICAL STORES

DAS RUBBER STAMP

Wholesale & Retails  
Dealers of all Musical Instruments

Mob.: 9835164815/ 8825354800/7250933033

MAIN ROAD, RANCHI, OPP. HANUMAN MANDIR  
KOKAR, H.B. ROAD, OPP. R.L.S.Y. SCHOOL, RANCHI

वर्मा प्रेस प्रा० लि० राँची

Verma's Today

शुंखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—

Class - X		Class - IX	
Hindi	₹ 140	Hindi	₹ 140
English	₹ 140	English	₹ 140
Mathematics	₹ 140	Mathematics	₹ 140
Science	₹ 140	Science	₹ 140
Social Science	₹ 140	Social Science	₹ 140
Sanskrit	₹ 120	Sanskrit	₹ 120
Hindi - B	₹ 140	Hindi - B	₹ 80
Hindi Vyakaran-I	₹ 120	Hindi Vyakaran-II	₹ 120
English Grammar-II	₹ 120	English Grammar-II	₹ 120
Sanskrit Vyakaran-II	₹ 100	Sanskrit Vyakaran-II	₹ 100
Hindi Practical	₹ 55	Hindi Practical	₹ 55
English Practical	₹ 55	English Practical	₹ 55
Maths. Practical	₹ 65	Maths. Practical	₹ 55
Science Practical	₹ 65	Science Practical	₹ 70
S. Science Practical	₹ 65	S. Science Practical	₹ 65
Sanskrit Practical	₹ 55	Sanskrit Practical	₹ 55
Maths. Practical (Combined)	₹ 90	Maths. Practical (Combined)	₹ 75
Science Practical (Combined)	₹ 90	Science Practical (Combined)	₹ 75

English Medium		English Medium	
Mathematics	₹ 200	Mathematics	₹ 130
Science	₹ 200	Science	₹ 200
Social Science	₹ 200	Social Science	₹ 130
Maths. Practical	₹ 80	Maths. Practical	₹ 80
Science Practical	₹ 80	Science Practical	₹ 80
S. Science Practical	₹ 80	S. Science Practical	₹ 80

मिलते-चुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान!